



सूरत भूमि

हिन्दी दैनिक

संपादक : संजय आर. मिश्रा



वर्ष-12 अंक: 177 ता. 02 जनवरी 2024, मंगलवार, कार्यालय: 114, न्यु प्रियंका टाउनशीप अपार्टमेंट, डिंडोली, डिंडोली, उधना सूरत (गुजरात) मो. 9327667842, 9825646069 पृष्ठ: 8 कीमत: 2:00 रुपये

ho@suratbhumi.com



/Suratbhumi.com



/Suratbhumi



/Suratbhumi



/Suratbhumi



/Suratbhumi

सचिन के बच्चे की मां बनने वाली है सीमा हैदर, खुद किया कफन;



नोएडा। ऑनलाइन गेमिंग वाली मोहब्बत के लिए सहज पार कर नोएडा आने वाली सीमा हैदर आए दिन सुखियों में बनी रहती हैं। कभी उनकी लेकर सनसनीखेज दावे किये जाते हैं तो कभी मीडिया को इंटरव्यू देकर वो खुद लाइमलाइट बटोर लेती हैं। सीमा की प्रेनेसी को लेकर कई बार बातें सामने आ चुकी हैं। मां बनने की बात पर सीमा ने नए साल के पहले दिन ही बड़ी बात कह दी है। सीमा हैदर ने एक इंटरव्यू में 2024 में नई मेहमान के आने की जानकारी दी है। इंटरव्यू के मुताबिक सीमा हैदर साल 2024 में मां बनने वाली हैं। सचिन और परिजनों के सामने मीडिया से बात करते हुए सीमा ने प्रेनेसी की खबर को कन्फर्म किया है। सचिन के पिता ने सीमा हैदर का हाथ देखकर दावा भी किया है कि एक लड़का होगा। इस बात की पुष्टि भी सीमा ने की है। रिपोर्टर के सवाल- क्या 2024 नई खुशियां लेकर आ रहा है? इस पर सीमा ने जवाब दिया कि बिल्कुल नई खुशियां लेकर आया। सीमा ने कहा, 2023 भी बहुत खुशियां लेकर आया, मानती हूँ थोड़ा बहुत दुःख हुआ। सचिन का बर्थडे भी नजदीक आ रहा है। अच्छा रहेगा कि किसी और का भी जन्म हो जाए। डिंडोली की संभावित डेट को लेकर पूछे जाने पर सीमा ने थोड़ा इंतजार करने की बात कही है। इस पर जब रिपोर्टर ने पूछा कि होली के पहले या बाद तो सीमा ने कहा कि होली के पहले नहीं हो सकता लेकिन हाँ जल्द ही खुशखबरी सुनने को मिलेगी। गौरतलब हो, सीमा अपने साथ पाकिस्तान से अपने बच्चों को भी साथ लाई हैं। सीमा के चार बच्चे हैं जिनमें एक बेटा है जिसका नाम फरहान अली है, अब उसका नाम नाम बदलकर राज कर दिया है। उसकी उम्र 8 साल है। जबकि तीन बेटियां फरवा, (नाम बदलकर प्रियंका उम्र 6 वर्ष) फरिहा बतूल (नाम बदलकर मुनी 4 साल) कर दिया है और फरहा बतूल का नाम बदलकर परी कर दिया है।

नीतीश कुमार की दौलत में 13 गायें और दो अंगूठियां भी; एक साल में दोगुनी ही सीएम की संपत्ति

पटना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने अलावा सरकार के सभी मंत्रियों की संपत्ति का ब्योरा 2023 के आखिरी दिन सार्वजनिक कर दिया। नीतीश कुमार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक वह 1.64 करोड़ की दौलत के मालिक हैं। उनकी संपत्ति में 13 गायें और 10 बछड़े और बछिया भी शामिल हैं। इनकी कीमत 1.45 लाख रुपये बताई गई है। इसके अलावा उनके पास 22,552 रुपये की नकदी है और अलग-अलग बैंक खातों में 49,202 रुपये जमा हैं। नीतीश कुमार और उनके मंत्रियों की संपत्ति की जानकारी कैबिनेट सचिवालय की वेबसाइट पर दी गई है। नीतीश कुमार के पास जो संपत्ति है, उसमें 11.32 लाख रुपये की फोर्ड इकोस्पॉर्ट कार है। वहीं दो सोने की और एक चांदी की अंगूठी भी है, जिनकी कीमत 1.28 लाख रुपये है। सीएम ने जो अपनी दौलत बताई है, उसमें व्यायाम के लिए एक टेडमिल है। एक साइकिल और माइक्रोव ओवन है। नीतीश कुमार के पास दिल्ली के द्वारका में



एक अपार्टमेंट भी है। इसे उन्होंने 13.78 लाख रुपये में 2004 में खरीदा था और फिलहाल इसकी कीमत उन्होंने 1.48 करोड़ रुपये बताई है। यह उनकी एकमात्र अचल संपत्ति है। बता दें कि नीतीश कुमार हर साल के आखिरी दिन अपनी संपत्ति का ब्योरा देते हैं। इससे पहले 2022 के आखिरी दिन नीतीश कुमार ने बताया था कि उनके पास कुल 75.53 लाख रुपये की दौलत है। अब यह 1.64 करोड़ है यानी नीतीश कुमार की संपत्ति एक साल के भीतर ही दोगुने से अधिक हो गई है। दोनों साल के ब्योरे का तुलनात्मक अध्ययन करते तो पता चलता है कि द्वारका स्थित पर की कीमत में आए बड़े उछाल के चलते नीतीश कुमार की दौलत में इजाफा हुआ है। नीतीश कुमार सरकार ने सभी मंत्रियों के लिए यह अनिवार्य किया है कि वे साल के अंत में अपनी संपत्ति का ब्योरा दें।

तेजस्वी और तेज प्रताप यादव के पास है कितनी दौलत

जानकारी के अनुसार बिहार के उपमुख्यमंत्री

तेजस्वी प्रसाद यादव के पास 50,000 रुपये नकद हैं, जबकि उनकी पत्नी राजश्री के पास एक लाख रुपये नकद हैं। उपमुख्यमंत्री के बड़े भाई तेजप्रताप यादव के पास 98,562 रुपये नकद हैं। तेजप्रताप के पास करीब 3.58 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति है। इसके अलावा जिन अन्य मंत्रियों ने अपनी संपत्ति की घोषणा की है, उनमें सुमित कुमार सिंह (विज्ञान, प्रौद्योगिकी और तकनीकी शिक्षा विभाग), सुनील कुमार (मद्य निषेध, उत्पाद शुल्क और पंजीकरण विभाग), अनीता देवी (पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग), जितेंद्र कुमार राय (कला, संस्कृति एवं युवा विभाग), रतेश सादा (एससी/एसटी कल्याण विभाग), जयंत राज (लघु उद्यम संसाधन विभाग), जमा खान (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग), मुरारी प्रसाद गौतम (पंचायती राज), शमीम अहमद (विधि विभाग), शाहनवाज (आपदा प्रबंधन), संजय कुमार झा (जल संसाधन विभाग) शामिल हैं।

अयोध्या मंदिर के मुख्य पुजारी ने उद्भव ठाकरे और संजय राउत को लताड़ा

आचार्य सत्येंद्र दास ने संजय राउत के बयान पर भी सवाल उठाए। आचार्य ने कहा, संजय राउत इतने दर्द में हैं कि वह जाहिर भी नहीं कर सकते। वे ही थे, जो भगवान राम के नाम पर चुनाव लड़ते थे।

नई दिल्ली। शिवसेना के प्रमुख उद्भव ठाकरे के बयान पर अयोध्या राम मंदिर के मुख्य पुजारी ने नाराजगी जाहिर की है। उनका कहना है कि समारोह के न्योते सिर्फ राम भक्तों को ही भेजे गए हैं। इसके अलावा उन्होंने राज्यसभा सांसद संजय राउत पर भी निशाना साधा है और राम भगवान के अपमान के आरोप लगाए हैं। ठाकरे का कहना था कि उन्होंने राम मंदिर उद्घाटन समारोह का न्योता नहीं मिला है। समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा, न्योते केवल उन्हें ही भेजे गए हैं, जो भगवान राम के भक्त हैं। यह कहना पूरी तरह से गलत है कि भारतीय जनता पार्टी भगवान राम के नाम पर लड़ रही है। हमारे प्रधानमंत्री को हर जगह सम्मान मिल रहा है। उन्होंने अपने कार्यकाल में काफी काम किया है। यह राजनीति नहीं है। यह उनका समर्पण है। इस दौरान उन्होंने राउत

के बयान पर भी सवाल उठाए। आचार्य ने कहा, संजय राउत इतने दर्द में हैं कि वह जाहिर भी नहीं कर सकते। वे ही थे, जो भगवान राम के



नाम पर चुनाव लड़ते थे। जो लोग भगवान राम में विश्वास करते हैं, सता में हैं, वे कैसे बकवास कर रहे हैं? वह भगवान राम का अपमान कर रहे हैं। दरअसल, राउत ने कह दिया था कि अब भगवान की तरफ से भगवान राम को अपना उम्मीदवार

बनाना ही बचा है। राउत ने कहा था, प्रधानमंत्री कार्यालय और सरकार को अपना बेस अयोध्या में शिफ्ट कर देना चाहिए। वे सिर्फ राम के नाम पर



कोत मारेंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ और नहीं किया है। उन्होंने कहा, बालासाहब ठाकरे और हजारों शिवसेनियों ने इधमें योगदान दिया है। 22 जनवरी को रामलला अयोध्या के नवनिर्मित मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं।

देश में नए साल का जश्न, गोवा-मुंबई और बेंगलुरु में रातभर पार्टी,

नई दिल्ली। नया साल 2024 शुरू हो गया है। लोग अपने परिवार और करीबियों को कॉल और मैसेज के जरिए नए साल की शुभकामनाएं दे रहे हैं। टूरिस्ट और फिजिकल स्पॉट के साथ धार्मिक स्थलों पर भी नए साल की धूम है। देशभर के मॉल, पब और क्लबों में 31 दिसंबर को रातभर पार्टी हुई। इस बार 30 और 31 दिसंबर को वीकेंड के अलावा 1 जनवरी को नया साल होने की वजह से 3 दिन की छुट्टियां हैं। गोवा में समुद्र के किनारे आतिशबाजी के बीच रात के 12 बजे लोगों ने नए साल का स्वागत किया। मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, गुरुग्राम और कोलकाता जैसे शहरों में भी लोगों ने रातभर पार्टी की। शिमला, मनाली और गुलमर्ग जैसे टूरिस्ट स्पॉट पर लोग पहाड़, जंगल और बर्फ देखने के लिए पहुंचे। इसके चलते मनाली-शिमला में सभी होटलस् लाम्भा फूल हैं।

श्रीनगर के लाल चौक पर भी नए साल के स्वागत में भारी लोग उमड़े। प्रशासन के मुताबिक, ऐसा



नजार पहले कभी नहीं देखा गया। घंटा घर पर पर्यटन विभाग ने म्यूजिकल प्रोग्राम का आयोजन किया था।

बेंगलुरु में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के चलते सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ नजर आई। नए साल की रात में होटलों, रेस्टोरेंट में जश्न का माहौल रहा। लोग अपने परिवार, दोस्तों के साथ एन्जॉय करते नजर आए।

बेंगलुरु में न्यू ईयर सेलिब्रेशन के चलते सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ नजर आई। नए साल की रात में होटलों, रेस्टोरेंट में जश्न का



माहौल रहा। लोग अपने परिवार, दोस्तों के साथ एन्जॉय करते नजर आए।

जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद श्रीनगर का लाल चौक भी न्यू ईयर सेलिब्रेशन का सेंटर बन गया है। 31 दिसंबर को यहाँ बड़ी संख्या में लोग नए साल के स्वागत के लिए जुटे।

जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद श्रीनगर का लाल चौक भी न्यू ईयर सेलिब्रेशन का सेंटर बन गया है। 31 दिसंबर को यहाँ बड़ी संख्या में लोग नए साल के

स्वागत के लिए जुटे। भारत में हिंदू नव वर्ष के अलावा अन्य धर्मों की अलग परम्पराएं

भारत में नया साल 5 बार मनाया जाता है। 1 जनवरी को ईसाई न्यू ईयर के अलावा हिंदू, पंजाबी, जैन और पारसी समुदाय अलग-अलग महीनों में नए साल का उत्सव मनाते हैं। चैत्र मास (मार्च-अप्रैल) की शुक्ल प्रतिपदा से हिंदू नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है। इसी दिन से नए संवत्सर की शुरुआत भी होती है। इसे गुड़ी पड़वा, युगादी नामों से देश के विभिन्न राज्यों में मनाया जाता है। इसके अलावा पंजाब में नया साल वैशाखी (अप्रैल-मई) पूर्व के रूप में मनाया जाता है। जैन समुदाय के लोग दीपावली के अगले दिन से नया साल मनाते हैं। इसे वीर निर्वाण संवत् भी कहा जाता है। पारसी धर्म का नया साल आस्त में नवरोज उत्सव के साथ शुरू होता है। इसके अलावा इस्लामिक कैलेंडर का नया साल मुहर्रम होता है, जो जुलाई से शुरू होता है।

जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद श्रीनगर का लाल चौक भी न्यू ईयर सेलिब्रेशन का सेंटर बन गया है। 31 दिसंबर को यहाँ बड़ी संख्या में लोग नए साल के

झारखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति चन्द्रशेखर को राजस्थान स्थानांतरित करने की सिफारिश



नयी दिल्ली। उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने झारखंड उच्च न्यायालय के चरिष्ठतम न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चन्द्रशेखर को राजस्थान उच्च न्यायालय स्थानांतरित करने की सिफारिश की है।

उच्चतम न्यायालय की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश डी वार्ड चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति चन्द्रशेखर का अनुरोध स्वीकार करते हुए उनके स्थानांतरण की सिफारिश करने का फैसला

लिया। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति वी आर गर्व, न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की सदस्यता वाली कॉलेजियम ने 29 दिसंबर की बैठक में यह फैसला लिया।

नए साल पर झारखंड में बड़ा हद्दसा, जमशेदपुर में पिकनिक मनाने जा रहे 6 लड़कों की मौत

जमशेदपुर। झारखंड में नए साल पर बड़ा हद्दसा हो गया। जमशेदपुर में सुबह बिष्टुपुर थाना अंतर्गत सकिंट ह्राउस गोल चक्कर के निकट हुई सड़क दुर्घटना में 6 युवकों की मौत हो गई। मृतकों में सभी की उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच की है। सभी मृतक आदित्यपुर के बाबा आश्रम रोड नंबर 5 के निवासी थे।

सभी सुबह 5 बजे सूरज नामक युवक की कार पर सवार होकर पिकनिक मनाने के लिए निकले थे। कार सूरज चला रहा था और बिष्टुपुर गोल चक्कर के निकट अनियंत्रित होकर पहले कार गोल चक्कर से टकराई उसके बाद बिजली के खंभे से टकराते हुए पेड़ से टकरा गई। सुबह हुई दुर्घटना के बाद उस इलाके में ऑफर तफरी मच गई। तत्काल ही मौके पर बिष्टुपुर पुलिस पहुंची। कार में लाश बुरी तरह फंसी हुई थी। किसी तरह उन्हें बाहर



निकाल कर टाटा मुख्य अस्पताल ले जाया गया जहाँ चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इधर घटना की सूचना मिलते ही बाबा आश्रम से लोग पहले टाटा मुख्य अस्पताल पहुंचे जहाँ से सबको पोस्टमार्टम के लिए

एमजीएम मेडिकल कॉलेज लाया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि यह सभी युवक आपस में दोस्त हैं और रात में कॉलेजों में ही लिट्टी पार्टी का आयोजन किया गया था। आयोजन के बाद अचानक इनमें पिकनिक की

योजना बनी और सभी कार से निकल गए। कार पर 7 लोग सवार थे जिसमें एक का इलाज टाटाएच में चल रहा है।

शुभम कुमार झा पता बाबा आश्रम रोड नंबर 5 आदित्यपुर मूल रूप से बिहार के खगड़िया जिला के निवासी हैं। सुबह 5:00 ड्यूटी की बात कह कर वह घर से निकला था शुभम मल्टी टेक में कार्यकर्ता था। अनिर्कृत महती उम्र मं 3 महीना पहले टाटा मोटर्स में ट्रेनिंग में ड्यूटी पड़े थे अभी कंपनी ब्लाक क्लोजर होने के चलते बंद था इसीलिए घर पर थे मूल रूप से बिहार के पटना जिला अंतर्गत मोकामा निवासी हैं।

सूरज कुमार साह 25 साल जो कर एक्सिडेंट है अपनी कार टाटा स्टिल में उनकी गाड़ी चलती है। अन्य के परिवार वाले अभी नहीं आए हैं।

अरविंद केजरीवाल ने तय किया नए साल का टारगेट, लोकसभा के अलावा इस राज्य पर फोकस

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सियासी पार्टियों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी (आप) विपक्षी दलों के गुट इंडिया अलायंस का एक अहम हिस्सा है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी को जिन सीटों पर चुनाव लड़ने की अनुमति मिलती है, वहाँ आप पूरे मन से चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली और पंजाब की सत्ता में आप पार्टी के आने के बाद केजरीवाल ने घोषणा की कि लोकसभा चुनावों के बाद उनकी पार्टी के लिए अगला बड़ा मुकामला हरियाणा में होगा। केजरीवाल ने कहा कि

मजबूत संगठन के बिना चुनाव नहीं जीता जा सकता, इसलिए अब हमें पूरे देश में संगठन खड़ा करना होगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव पर पार्टी का फोकस दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। हमें जो भी सीटें मिलेंगी, हम चुनाव लड़ेंगे और सभी सीटें जीतेंगे। अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों का भी जिक्र किया। बता दें इस साल लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा में विधानसभा



चुनाव होंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा, 10 साल में हमने राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावी प्रभाव डाला है, पहली बार विपक्षी दलों को स्कूल-अस्पताल का काम करने पर मजबूर होना पड़ा। इन लोगों ने हमारा गारंटीशब्द चुन लिया है। उन्होंने गारंटी तो दी, लेकिन किसी ने उन्हें पूरा नहीं किया, क्योंकि उनकी मंशा ठीक नहीं है, जबकि हम अपनी सभी गारंटी पूरी कर रहे हैं। जेल में बंद 5 नेता हमारे हीरो-अरविंद केजरीवाल अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हमारी पार्टी के जो पांच नेता जेल में हैं, वे हमारे

हीरो हैं। उन्होंने कहा, हमें उन सभी पर गर्व है। अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा और गरीबों को मुफ्त इलाज देने के लिए हमें जेल जाना पड़ेगा तो हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। आप की 12वीं राष्ट्रीय परिषद की बैठक में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप ने 12 वर्षों में अभूतपूर्व सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा, हमने वह कर दिखाया जो दूसरी पार्टियां 75 साल में नहीं कर सकीं। हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, महंगाई और रोजगार की बात की, जो किसी पार्टी ने नहीं की। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में

आप सरकार के पिछले दो साल के काम से पता चलता है कि पार्टी काम को कितना सीरियस लेती है। उन्होंने कहा, पंजाब सरकार ने 1080 करोड़ रुपये में निजी थर्मल पावर प्लांट खरीदा है, ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है। दो साल में 650 मोहल्ला क्लीनिक काम कर रहे हैं और जनवरी में, इनकी संख्या बढ़कर 750 हो जाएगी। पंजाब ने तीर्थयात्रियों के लिए हवाई जहाज बुक किए हैं, अब गरीब लोग भी हवाई जहाज से पटना साहिब, वाराणसी और नांदेड़ जाएंगे।

वैष्णो देवी जाने वालों को बिना मास्क के यात्रा की इजाजत नहीं

नई दिल्ली। नए साल के मौके पर वैष्णो देवी के दरबार में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। इस बार पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड टूटेगा। क्योंकि यहां रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं। इस साल अभी तक 97 लाख के करीब लोगों ने मां वैष्णो देवी के दर्शन किए हैं। इससे पहले साल 2012 में एक करोड़ श्रद्धालुओं ने मां वैष्णो देवी के दर्शन किए थे। इस बीच देश में बढ़ते कोरोना मामलों के देखते हुए श्रद्धालु बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लिया है। बोर्ड के अनुसार बिना मास्क के यात्रियों को यात्रा करने की इजाजत नहीं होगी। मां वैष्णो देवी भवन के साथ ही सभी मार्गों पर यहां तक कि आधार शिविर कटरा में सुरक्षा बलों के साथ ही पुलिस विभाग की अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं इसके अलावा यात्रा की ड्रोन द्वारा भी निगरानी की जाएगी। आज श्रद्धालुओं को विशेष यात्रा कार्ड जारी होगा। माता वैष्णो देवी श्रद्धालु बोर्ड की तरफ से मां वैष्णो देवी की यात्रा करने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को विशेष स्टीकर युक्त आरएफआईडी यात्रा कार्ड उपलब्ध कराएगा। इसके साथ ही भारी भीड़ को देखते हुए भाकों के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे-चप्पे पर सुरक्षाबलों को तैनाती की गई है।

ममता का कार्यकर्ताओं को संदेश...बुरी ताकतों के सामने नहीं झुकने वाले

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तुणमूल कांग्रेस के 27वें स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि उनके कार्यकर्ता किसी भी परिस्थिति में बुरी ताकतों के सामने नहीं झुकने वाले हैं। यह आपके अटूट समर्थन के बल पर है कि हम इस महान लोकतांत्रिक देश में सभी के लिए लड़ना जारी रखने वाले हैं। किसी भी बुरी ताकत के सामने समर्पण नहीं करने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, सभी आतंक के खिलाफ हम अपने देश के आम लोगों के लिए आजीवन संघर्ष जारी रखने वाले हैं। पार्टी महासचिव और लोकसभा सदस्य अभिषेक बनर्जी ने भी पार्टी कार्यकर्ताओं को एक संदेश भेजा, जहां उन्होंने स्थापना के बाद से तुणमूल कांग्रेस की इस यात्रा में उनके समर्थन के लिए लोगों को धन्यवाद दिया। सोमवार सुबह पार्टी के मुख्यालय तुणमूल भवन में स्थापना दिवस मनाया गया, जहां तुणमूल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सुब्रत बख्शी ने अपना झंडा फहराया। इस अवसर पर पार्टी के कई अन्य वरिष्ठ नेता और राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य उपस्थित थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी पार्टी का प्रमुख चेहरा होगी, जबकि महासचिव सहित नेतृत्व केंद्र में सरकार बदलने के लिए आंदोलन का नेतृत्व करेगा।



दिल्ली में कोहरा और खराब वायु प्रदूषण के कारण प्रभावित हुआ जनजीवन

नई दिल्ली। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, दिल्ली में न्यूनतम तापमान 10.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो वर्तमान के औसत से तीन डिग्री अधिक है। दिल्ली में हल्का कोहरा छाया रहा, जिससे विजिलेंसिटी प्रभावित हुई। यात्रियों और सुबह जल्दी उठने वालों को अलग-अलग स्तर की कम विजिलेंसिटी का अनुभव हुआ, सुबह 7 बजे के आसपास सफरदर्ज में सबसे कम विजिलेंसिटी 700 मीटर दर्ज की गई। इस बीच, पालम में 1,100 मीटर की थोड़ी बेहतर विजिलेंसिटी थी। हालांकि, दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, आनंद विहार में हवा की गुणवत्ता पीएम 2.5 का स्तर 331 और पीएम 10 का स्तर 236 के साथ बहुत खराब श्रेणी में प्रवेश कर गई, जबकि एनओ2 का स्तर 54 पर पहुंच गया और सीओ 74 यानी संतोषजनक पर था। बवना स्टेशन ने पीएम 2.5 को 325 पर दर्ज किया, जो बहुत खराब श्रेणी में था, जबकि पीएम 10 का स्तर 195 पर पहुंच गया, जो मध्यम श्रेणी में था, जबकि सीओ 50 यानी अच्छे स्तर पर पहुंच गया। द्वारका सेक्टर 8 में एक्सआई मोनिटरिंग स्टेशन ने पीएम 2.5 को 373 पर बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया, जबकि पीएम 10 को 262 या खराब पर दर्ज किया गया, जबकि सीओ 46 पर, अच्छे स्तर पर था। आईटीओ स्टेशन पर एक्सआई बहुत खराब श्रेणी में था, पीएम 2.5 का स्तर 316 पर और पीएम 10 का स्तर 172 पर, मध्यम श्रेणी में था, जबकि सीओ 41 पर, अच्छे स्तर पर था। ओखला फेज-2 में पीएम 2.5 का स्तर 332 पर, बहुत खराब श्रेणी में और पीएम 10 202 पर, खराब श्रेणी में दर्ज किया गया।

भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 636 नए मामले

नई दिल्ली। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 636 नए मामले सामने आए और 3 लोगों की मृत्यु हुई है। अभी देश में कोरोना के कुल सक्रिय मामले 4,394 हैं। दिल्ली में कोरोना के नए वैरिएंट जेएन 1 का एक रोगी मिला है। इसका कारण दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। एलएनजेपी अस्पताल में मरीजों के लिए 20 बेड आरक्षित हैं। अभी तक अस्पताल में एक भी मरीज की पुष्टि नहीं हुई है। कोरोना के मरीजों के लिए अस्पताल में अलग हेल्प डेस्क की व्यवस्था की गई है। देहरादून में एक और कोरोना का मामला सामने आया है। इस बार 8 साल का बच्चा कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। इससे पहले एक 77 वर्षीय महिला कोरोना पॉजिटिव मिली थी, जिनका इलाज मैक्स हॉस्पिटल में चल रहा है। दोनों कोरोना के मरीजों के संपर्क को जीनोम सीडीसिंग के लिए भेजा जा रहा है। कोरोना पॉजिटिव 8 साल के बच्चे को 20 अस्पताल में भर्ती किया गया है। बच्चे को सीजनल इन्फ्लूएंजा हो गया है। चिकित्सकों के मुताबिक, कोविड और सीजनल इन्फ्लूएंजा के लक्षण एक जैसे हैं। जिला सर्विलांस अधिकारी डॉ. रावत ने बताया कि शनिवार को इन्फ्लूएंजा के पांच संदिग्ध मरीजों की जांच हुई थी। इसमें एक आठ साल के बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दोनों मरीजों की रिपोर्ट पॉर्टल पर एक दिन बाद जारी हो रही है।

भारत से पहले बीजिंग की यात्रा करने को तैयार राष्ट्रपति मोहम्मद मुज्जु

नई दिल्ली। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुज्जु के भारत दौरे से पहले जनवरी में चीन का दौरा करने की संभावना है, जिससे वह नई दिल्ली पहुंचने से पहले बीजिंग पहुंचने वाले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित मालदीव के पहले नेता बन जाएंगे। रिपोर्ट में बतले कि एक सूत्र ने कहा कि यात्रा है कि चीन और मालदीव मुज्जु की बीजिंग की द्विपक्षीय यात्रा के लिए बातचीत कर रहे हैं, जो कुछ ही हफ्तों में हो सकती है। चीन समर्थक माने जाने वाले मुज्जु ने अपने बाद के मालदीव के राष्ट्रपतियों को भी चुनौती दी, जिन्होंने भारत को अपने पहले बंदरगाह के रूप में चुना। नवंबर 2023 में राष्ट्रपति पद संभालने के बाद से चीन मुज्जु की तीसरी विदेश यात्रा होगी। दुबई की यात्रा से पहले उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में पहली बार तुर्की का दौरा किया था। इस बीच, मुज्जु की चीन यात्रा और उनके चीनी समकक्ष शी जिनपिंग के साथ मुलाकात पर भारत की नजर रहने की उम्मीद है। 2008 में लोकतांत्रिक रूप से चुने गए पहले राष्ट्रपति नशीद के बाद से मालदीव के हर राष्ट्रपति ने पहली बार भारत का दौरा किया था। इस अवसर भारतीय अधिकारियों द्वारा मालदीव में भारत की प्रमुख स्थिति और बाद में घोषित भारत प्रथम नीति के प्रतीक के रूप में उद्धृत किया गया था। यह लगभग एक दशक के बाद है, मालदीव का कोई राष्ट्रपति चीन का दौरा करेगा। यामीन रणनीतिक रूप से स्थित हिंद महासागर के देश की बीजिंग यात्रा के आखिरी नेता थे। राष्ट्रपति पद के अपने अंतिम वर्ष, 2017 में, यामीन ने देश में भारतीय हितों को लक्षित करने के लिए ओवरटाइम काम किया। यामीन की चीन यात्रा के दौरान दोनों देशों ने एक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए और चीन को सबसे पश्चिमी एटोल में से एक में एक वेधशाला बनाने में सक्षम बनाने के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किए, जिससे भारत में पैदा हो गई कि यह चीन को एक महत्वपूर्ण हिंद महासागर शक्ति का एक सुविधाजनक स्थान प्रदान करेगा। वह मार्ग जहाँ से अनेक व्यापारी और अन्य जहाज गुजरते हैं। मुज्जु के पूर्ववर्ती इब्राहिम सोलिह भारत समर्थक थे और बीजिंग ने सता में आने के कुछ ही दिनों के भीतर मौजूदा चीन-इस्कावात नेता को देश में निमंत्रण देने में कोई समय नहीं लगाया। मुज्जु के चुनावी वादे भारत से मालदीव से अपनी सेना वापस बुलाने और भारत के साथ 100 से अधिक समझौतों की समीक्षा करने के लिए कहना था। हालांकि भारत इन भारतीय संपत्तियों के निरंतर स्थानान्तरण के लिए एक व्यावहारिक समाधान की उम्मीद कर रहा है, मुज्जु ने सीओपी 28 के मौके पर पीएम मोदी के साथ अपनी बैठक के बाद कहा कि भारत अपने सैनिकों को वापस लेने पर सहमत हो गया है कि

संसद से पास तीन नए कानून को सुप्रीम कोर्ट में दी गई चुनौती, रोक लगाने की हुई मांग

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत की दंड संहिता में बदलाव लाने के लिए कानून के तीन नए सेटों के अधिनियम को चुनौती देने वाली एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, जिसमें दावा किया गया है कि उनमें कई 'खासियां और विरसोतियां' हैं। लोकसभा ने 21 दिसंबर को तीन प्रमुख कानून पारित किए थे - भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, और भारतीय साक्ष्य (द्वितीय) विधेयक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 25 दिसंबर को विधेयकों पर अपनी सहमति दी। ये नए कानून-भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम-भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे।

तीनों कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग करते हुए, वकील विशाल तिवारी द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया कि इन्हें बिना किसी संसदीय बहस के अधिनियमित किया गया था क्योंकि अधिकांश विपक्षी सदस्य निर्लंबित थे। याचिका में अदालत से तीन नए आपराधिक कानूनों की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए तुरंत एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि नए आपराधिक कानून कहीं अधिक कठोर हैं और वास्तव में पुलिस राज्य स्थापित करते हैं और भारत के लोगों के मौलिक अधिकारों के हर प्राधान्य का उल्लंघन करते हैं। यदि ब्रिटिश कानूनों को औपनिवेशिक और कठोर माना जाता था, तो भारतीय कानून अब कहीं अधिक कठोर हैं क्योंकि ब्रिटिश काल में आप किसी व्यक्ति को अधिकतम 15 दिनों तक पुलिस हिरासत में रख सकते थे। 15 दिनों से जल्दी 90 दिनों या उससे अधिक तक का विस्तार, पुलिस उत्पीड़न को सक्षम करने वाला एक चौकाने वाला



प्रावधान है।

भारतीय न्याय संहिता में राजद्रोह कानून के एक नए अवतार में अलगाव, सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधियों, अलगाववादी गतिविधियों या संप्रभुता या एकता को खतरों में डालने जैसे अपराधों को शामिल किया गया है। नए कानूनों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जानबूझकर या जानबूझकर, बोले गए या लिखे हुए शब्दों के जरिए, या संकेतों के जरिए, या दूरस्थ प्रतिक्रिया के जरिए, या इलेक्ट्रॉनिक संचार के जरिए या वित्तीय साधनों

के इस्तेमाल के जरिए, या अन्यथा, अलगाव को भड़काना है या उन्मत्तता का प्रयास करता है या सशस्त्र होता है विद्रोह या विध्वंसक गतिविधियों, या अलगाववादी गतिविधियों की भावनाओं को प्रोत्साहित करना या भारत की संप्रभुता या एकता और अखंडता को खतरों में डालना या ऐसे किसी भी कार्य में शामिल होना या करना, आजीवन कारावास या कारावास से दंडित किया जाएगा जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है और इसके लिए उत्तरदायी भी होगा।

ओडिशा में किसानों, महिलाओं, युवाओं पर ध्यान केंद्रित करेगी भाजपा

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ओडिशा इकाई ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए राज्य में किसानों, महिलाओं, युवाओं और छात्रों पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया है। पार्टी के एक नेता ने इसकी जानकारी दी। आगामी चुनावों के लिए रणनीति तैयार करने के वास्ते भाजपा नेताओं की तीन दिवसीय बैठक में इस बारे में फैसला हुआ। उन्होंने बताया कि बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल सतोष, केंद्रीय पर्यवेक्षक सुनील बंसल और सहायक पर्यवेक्षक विजयपाल सिंह तोमर उपस्थित थे।



हालांकि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने बहुत राशि खर्च की है, लेकिन राज्य की बीजू जनता दल (बीजूद) सरकार इसका श्रेय लेती है। हम महिलाओं को इन तथ्यों से अवगत कराएंगे।" इसके अलावा, महिला मोर्चा ओडिशा में महिलाओं के खिलाफ "बढ़ते अत्याचार" के मुद्दे को भी उठाएगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि पार्टी राज्य में बेरोजगारी और काम की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर रुख करने वाले युवाओं के मुद्दे को भी उठाएगी।

भाजपा की राज्य इकाई के अध्यक्ष मनमोहन सामल ने कहा, "आज भाजपा ओडिशा में सत्ता में आती है, तब चिटफंड कंपनियों द्वारा ठग गए सभी लोगों को 24 घंटे के भीतर उनकी खून-पसीने की कमाई वापस मिल जाएगी। हम उनका पैसा लौटा देने वाले हैं। हम अध्यादेश लाकर गरीब लोगों को पैसा लौटाएंगे। सामल ने कहा कि भाजपा यह भी सुनिश्चित करेगी कि ओडिशा में किसानों की आय दोगुनी हो और किसानों को मोदी सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों का पूरा लाभ मिले। भाजपा के वादों के जवाब में कांग्रेस ने कहा, हमने देखा है कि कैसे भाजपा सरकार ने काला धन वापस लाकर देश के प्रत्येक परिवार के बैंक खातों में 15 लाख रुपये जमा किए हैं। जनता ने यह भी देखा है कि भाजपा सरकार ने किस तरह युवाओं को रोजगार दिया। भाजपा ने कभी भी अपने वादे पूरे नहीं किये।

आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार बोले 22 जनवरी को मस्जिद-मदरसों में करें देश की प्रगति के लिए इबादत

नई दिल्ली। आरएसएस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य एवं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के मुख्य संरक्षक इंद्रेश कुमार ने अपील की कि 22 जनवरी को सुबह 11 बजे से दिन के एक बजे तक जब अयोध्या में रामलला की प्राण-प्रतिष्ठा हो, दरगाहों, मदरसों, मकतबों, मस्जिदों में देश की उन्नति, प्रगति, सौहार्द के लिए इबादत करें। शाम को इन स्थानों पर चिराग रोशन करें। इंद्रेश कुमार रविवार को आकाशवाणी के रंगभवन में 'राम मंदिर, राष्ट्र मंदिर-एक साझी विरासत-कूटअसुनी बातें' पुस्तक के विमोचन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, सभी का डीएनए एक है। सभी राम के हैं। नेका नेता फारुक अब्दुल्ला कहते हैं कि राम हिंदुओं के ही नहीं, हमारे भी हैं। हमने कब इनकार किया है। फारुक आइएनडीआइए को समझाते क्यों नहीं कि इबादत के लिए न्योते की जरूरत नहीं होती। उन्होंने कहा, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के कार्यकर्ता छह दिन से 15 दिनों तक पदयात्रा कर अयोध्या पहुंचेंगे। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भारत को आवश्यकता है। आने वाली नरसों को चरित्र निर्माण के लिए राम को समझना और समझाना जरूरी है। कहा, मनुष्य सामाजिक प्राणी भर नहीं, उसकी महत्वकाक्षा भी है। अगर उसके पास आदर्श नहीं है, तो वह बेलगाम हो जाती है। इसके चलते संस्कृतियां खराब हुईं। उन्होंने कहा, जी-20 के जरिये हमने वसुधैव कुटुम्बकम का संदेश दिया है। समारोह की अध्यक्षता करते हुए वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि राममंदिर आंदोलन कभी भी मुसलमानों के विरोध में नहीं था। विशिष्ट अतिथि राम जन्मभूमि न्यास अयोध्या के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि ने कहा, राम भारत की एकता का प्रतीक हैं, उन्होंने रिफॉर्म सेंटि निर्माण नहीं किया था, अपने नववास के दौरान सभी जनजातियों और लोगों को भी जोड़ा था। इससे पहले पुस्तक की लॉन्चिंग गीता सिंह और आरिफ खान भारतीय ने पुस्तक की सामग्री पर विस्तार से चर्चा की।



इंडियन नेवी ने अरब सागर में बढ़ाई निगरानी, समुद्र में बढ़ते हमलों से निपटने की तैयारी

नई दिल्ली (एजेंसी)। इंडियन नेवी ने अरब सागर में निगरानी बढ़ा दी है। दरअसल पिछले कुछ हफ्तों में समुद्र में मचते शिप की सुरक्षा से जुड़े कई घटनाएं हो चुकी हैं। इन्हें देखते हुए इंडियन नेवी ने सेंट्रल/नॉर्दन अरबियन सी और एडन की खाड़ी में निगरानी बढ़ा दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नेवी ने अपने टास्क ग्रुप बढ़ाते तैनात कर दिए हैं, जिसमें डिट्रॉपर और फ्रिगेट हैं। ये वॉरशिप समुद्र में सिक्योरिटी ऑपरेशन को मजबूत करेगी। साथ ही वहां से गुजर रहे मचेंट शिप को किसी सहायता की जरूरत होगी तो, वह भी मुहैया कराएंगे। पिछले दिनों में रेड सी, ग्लफ ऑफ एडेन और सेंट्रल/नॉर्दन अरबियन सी में मचेंट शिप की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है। इंडियन कोस्ट से करीब 700

नॉटिकल मील दूर लुटेरों ने भी शिप पर हमला किया था। पॉर्बंदर से साउथ-वेस्ट में 220 नॉटिकल माइल की दूरी पर एक मचेंट शिप पर ड्रोन अटैक हुआ था। यह सब इंडियन इस्कॉनमिक इंडियन नेवी ने सेंट्रल/नॉर्दन अरबियन सी और एडन की खाड़ी में निगरानी बढ़ा दी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नेवी ने अपने टास्क ग्रुप बढ़ाते तैनात कर दिए हैं, जिसमें डिट्रॉपर और फ्रिगेट हैं। ये वॉरशिप समुद्र में सिक्योरिटी ऑपरेशन को मजबूत करेगी। साथ ही वहां से गुजर रहे मचेंट शिप को किसी सहायता की जरूरत होगी तो, वह भी मुहैया कराएंगे। पिछले दिनों में रेड सी, ग्लफ ऑफ एडेन और सेंट्रल/नॉर्दन अरबियन सी में मचेंट शिप की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है। इंडियन कोस्ट से करीब 700

एक्सपीओसेट का सफल प्रक्षेपण कर इसरो ने दिया नववर्ष की सौगात

-ब्रह्मांडीय ऊर्जा बंड 8-30 केईवी में एक्स-रे ध्रुवीकरण मापन जैसे विविध उद्देश्य होंगे साकार

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने सोमवार सुबह 10 अन्य पेलोड के साथ एक्स-रे पोलरिमीटर सैटेलाइट (एक्सपीओसेट) का सफल प्रक्षेपण कर देशवासियों को नववर्ष का उज्ज्वल दिया है। इससे पहले साल 2023 में चंद्र के दक्षिण ध्रुव पर सफल लॉन्च से देश को गौरवित किया इसरो के अधिकारियों ने बताया कि एक्सपीओसेट और 10 अन्य वैज्ञानिक पेलोड ले जाने वाले ध्रुवीय उग्रह प्रक्षेपण यान-ड्रैगल (पीएसएलवी-डीएल) के प्रक्षेपण के लिए 25 घंटे की उलटी गिनती रविवार सुबह 8.10 बजे शुरू हुई जो सुरुक्षरूप से चल रही है। सुबह 9.10 बजे पीएसएलवी-सी58 कोडबाल भारतीय रॉकेट

पीएसएलवी-डीएल संस्करण, 44.4 मीटर लंबा और 260 टन वजन, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (एसडीएससी) के पहले लॉन्च पैड से एक्सपीओसेट के साथ उड़ान भरी। इसके साथ और 10 वैज्ञानिक पेलोड पीएसएलवी आर्बिटल प्लेटफॉर्म पर लगाए गए। अपनी उड़ान के लगभग 21 मिनट बाद, रॉकेट लगभग 650 किमी की ऊंचाई पर एक्सपीओसेट को परिसमा करेगा। इसके बाद आर्बिटल प्लेटफॉर्म (ओपी) प्रयोगों के लिए 3-अक्ष स्थिर मोड में बनाए रखने के लिए कक्षा को 350 किमी गोकारण कक्षा में कम करने के लिए रॉकेट के चौथे चरण को दो बार फिर से शुरू किया जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने कहा कि पीएसएलवी आर्बिटल एक्सपीओसेट में 3 (पीओएसएम-3) प्रयोग को इसरो और भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष सर्वेक्षण प्राधिकरण केंद्र (आईएन-एसएस) द्वारा आर्बिटल किए गए 10 पेलोडों पर पेलोड के ड्रैग को पूरा करते हुए निष्पादित किया जाएगा।

अच्छी शिक्षा देने और गरीबों का मुफ्त इलाज करने की बात करेंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। गौरतलब है कि दिल्ली के सीएम की टिप्पणी तब आई जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 3 जनवरी को केंद्रीय एजेंसी के सामने पेश होने के लिए बुलाया है। केजरीवाल ने कहा कि मुझे लगता है कि हम संघर्ष का सामना कर रहे हैं, लेकिन हमें दृढ़ होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पांच नेता जो आज जेल में हैं, वे हमारे नायक हैं। हमें उन सभी पर बहुत गर्व है। उन्होंने कहा कि वह वकीलों के साथ लगातार संपर्क में हैं। यह बहुत अच्छी बात है कि जेल में रहते हुए भी हमारे सभी नेताओं का हौसला अभी भी बहुत ऊंचा है। आप प्रमुख ने कहा कि उनकी पार्टी कुछ ही वर्षों में राजनीति में उमरी है क्योंकि उसने उन चीजों पर ध्यान केंद्रित किया जिन पर अन्य पार्टियों ने ध्यान केंद्रित नहीं किया।

केजरीवाल को जेल जाने का सता रहा डर, आप कार्यकर्ताओं को दी नसीहत



अच्छी शिक्षा देने और गरीबों का मुफ्त इलाज करने की बात करेंगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा और हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। गौरतलब है कि दिल्ली के सीएम की टिप्पणी तब आई जब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उन्हें दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 3 जनवरी को केंद्रीय एजेंसी के सामने पेश होने के लिए बुलाया है। केजरीवाल ने कहा कि मुझे लगता है कि हम संघर्ष का सामना कर रहे हैं, लेकिन हमें दृढ़ होने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पांच नेता जो आज जेल में हैं, वे हमारे नायक हैं। हमें उन सभी पर बहुत गर्व है। उन्होंने कहा कि वह वकीलों के साथ लगातार संपर्क में हैं। यह बहुत अच्छी बात है कि जेल में रहते हुए भी हमारे सभी नेताओं का हौसला अभी भी बहुत ऊंचा है। आप प्रमुख ने कहा कि उनकी पार्टी कुछ ही वर्षों में राजनीति में उमरी है क्योंकि उसने उन चीजों पर ध्यान केंद्रित किया जिन पर अन्य पार्टियों ने ध्यान केंद्रित नहीं किया।

गुजरात ने वर्ष 2024 के पहले दिन बनाया सामूहिक सूर्य नमस्कार का विश्व रिकॉर्ड

गोधरीनगर (एजेंसी)। नव वर्ष के पहले दिन गुजरात में एक साथ 108 जगहों पर कुल 50 हजार से अधिक लोगों ने सामूहिक सूर्य नमस्कार कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारत का वर्ष 2024 का पहला रिकॉर्ड दर्ज करने की गौरवशाली उपलब्धि हासिल की है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और खेल राज्य मंत्री हर्ष संचवली की प्रेरक उपस्थिति में गुजरात राज्य बोर्ड की ओर से सोमवार को मेहसाणा जिले के मोटरा में स्थित प्राचीन सूर्य मंदिर के परिसर में सामूहिक सूर्य नमस्कार का राज्य स्तरीय कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित हुआ। खेल, युवक सेवा और सांस्कृतिक गतिविधियां विभाग की ओर से सूर्य नमस्कार अभियान के अंतर्गत एक महाने तक ग्राम, तहसील, जिला, नगर और महानगर स्तर पर राज्यव्यापी सूर्य

नमस्कार प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। मोटरा में आयोजित राज्य स्तरीय सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इन प्रतियोगिताओं के विजेता योग साधकों को पुरस्कार राशि प्रदान कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने विशाल संख्या में उपस्थित योग साधकों और सूर्य नमस्कार करने वाले लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि विश्व नेता प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में दुनिया भर में भारतीय संस्कृति का गौरव बढ़ा है। उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी ने योग की प्राचीन परम्परा को दुनिया के समझ उजागर कर 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत कराई और योग साधना के सूर्यन्यास को जोड़ने का काम किया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र

पटेल ने कहा कि योग, प्राणायाम और सूर्य नमस्कार जैसी प्राचीन स्वास्थ्यवर्धक व्यायाम एवं कसरत परम्परा व्यक्ति को आध्यात्मिकता के साथ भी जोड़ने वाली अनूठी संस्कृति है। पटेल ने आगे कहा कि दीर्घदृष्ट प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वदेशी के साथ-साथ पूरी पृथ्वी के हित का विचार किया है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि सूर्य मंदिर में सूर्य की उपासना और आराधना करने का अनोखा अवसर प्राप्त हुआ है, जो नव वर्ष में नई ऊर्जा और उम्मा के साथ प्रत्येक के जीवन में आनंद और उत्साह का संचार करेगा। उन्होंने कहा कि आज नागरिकों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा हुई है। बीमारी के इलाज के बजाय बीमारी को ही नहीं, ऐसी स्वास्थ्यप्रद जीवन शैली के लिए लोगों ने योग और सूर्य



नमस्कार जैसी क्रियाओं को नियमित रूप से अपनाया है। मुख्यमंत्री ने 'विकसित भारत2047' के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वप्न को साकार करने के लिए सभी लोगों से योग, प्राणायाम और सूर्य नमस्कार को और अधिक व्यापक बनाकर अमृत काल में अमृतमय फलित्व के लिए संकल्प लेने का आह्वान किया। राज्य मंत्री हर्ष संचवली ने कहा कि देश के इतिहास में सामूहिक सूर्य नमस्कार की प्रथम घटना मोटरा सहित राज्य के 108 स्थानों पर दर्ज हुई है। उन्होंने कहा कि यह सामूहिक सूर्य नमस्कार देश और दुनिया को एक नया दिशा-दर्शन देगा। पूरे राज्य में पिछले एक महीने के दौरान 15 लाख से अधिक नागरिक सूर्य नमस्कार अभियान से जुड़े हैं, जिन प्रतियोगिताओं के माध्यम से आज

योग भारत की संस्कृति की पहचान है। आज गुजरात योग में रोल मॉडल बन गया है। उन्होंने नए वर्ष में नए संकल्प के साथ सूर्य नमस्कार को अपनाते का अनुरोध किया। उन्होंने टैकनॉलॉजी की व्यस्तता के बीच योग को अपनाकर जीवन को सकारात्मक बनाने की विशेष अपील भी की।

साल के पहले दिन 7.4 तीव्रता के भूकंप से हिला जापा

टोकियो। उत्तर-मध्य जापान में रिक्टर स्केल पर 7.4 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके बाद अधिकारियों को उत्तर-पश्चिमी तट के लिए सुनामी की चेतावनी जारी करनी पड़ी। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (जेएमएफ) के अनुसार, भूकंप इशिकावा और आसपास के प्रांतों में आया, जिसमें से एक की प्रारंभिक तीव्रता 7.4 थी। रिपोर्ट के अनुसार, जेएमएफ द्वारा इशिकावा, निगाटा और टोयामा प्रांत के पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में सुनामी की चेतावनी जारी है। रिपोर्ट के अनुसार, भूकंप के झटके राजधानी टोक्यो और कांटी क्षेत्र में महसूस किए गए। रिपोर्ट के अनुसार, सुनामी की चेतावनी के बाद 5 मीटर तक की लहरों की आशंका के कारण लोगों से तटीय क्षेत्रों को जल्दी से छोड़ने और इमारतों के शीर्ष या ऊंची भूमि पर जाने का आग्रह किया गया था। इशिकावा में वाजिमा शहर के तट पर 1 मीटर से अधिक ऊंची लहरें टकराईं। अभी तक किसी नुकसान या हाताहत की कोई रिपोर्ट नहीं है। रिपोर्ट में बताया कि हॉकुरिकु इलेक्ट्रिक पावर ने कहा कि वह अपने परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में किसी भी अनियमितता की जांच कर रहा है।

स्टेज पर लिया महिला मित्र का चुम्बन, विवादां में घिरे राष्ट्रपति माइली

ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जेवियर माइली शुक्रवार को महिला मित्र फातिमा फ्लोरेज के नए संगीत कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान चुम्बन कर राष्ट्रपति ने अपनी महिला मित्र का अभिवादन किया, जिसका वीडियो दुनिया में चर्चा का विषय बन गया है। यह पहली बार नहीं है जब कपल ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर किस किया है। नवंबर में राष्ट्रपति पद के लिए मतदान खत्म होने के बाद लाइव टेलीविजन पर भी वह कुछ इसी तरह दिखे थे। माइली के साथ



थिएटर में उनकी बहन करीना और उनके सुरक्षा प्रमुख भी शामिल हुए। फ्लोरेज इस दौरान गोल्डेन लियोटार्ड पहने हुए थे। सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रपति रात 9.40 बजे रॉक्स थिएटर पहुंचे। राष्ट्रपति माइली ने कथित तौर पर कार्यक्रम के टिकट के लिए अपनी जेब से भुगतान किया था। इससे पहले स्टेज से लोगों को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि अर्जेंटीना के लिए कठिन समय आने वाला है। लेकिन देश को आगे बढ़ना होगा। राष्ट्रपति की महिला मित्र एक लोकप्रिय हास्य कलाकार हैं। उन्होंने सार्वजनिक रूप से राष्ट्रपति को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए धन्यवाद दिया और कुछ समय बाद उनके साथ चली गईं। अपने तत्कालीन पति से अलग होने के बाद वह राष्ट्रपति से एक टॉक शो में मिली थीं। तब से दोनों एक दूसरे के साथ रिश्ते में हैं। इंटरव्यू के दौरान फातिमा ने मजाक में उनसे कहा था कि आप इस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए बेहद अकेले हैं। अक्टूबर में दोनों फ्रि टॉक शो में गए, जहां उन्होंने बताया कि वह एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। फातिमा ने कहा, हमने इंस्टाग्राम पर बातचीत शुरू की और काफी समय बाद एक-दूसरे से मिलने लगे। यह बेहद स्वाभाविक तौर पर आया। हम धीरे-धीरे करीब आए। मैं उरुग्वे में थी तब हमने एक दूसरे से बात की। इसके बाद फातिमा ने बताया कि वह फरवरी में अपने जन्मदिन पर अधिकारिक तौर पर पति से अलग हो गईं। अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति की तुलना ट्रंप से की जाती है। उन्होंने हाल ही में घोषणा की थी कि देश को आर्थिक शॉक ट्रीटमेंट की जरूरत है।

भारतीय मूल के अमीर दंपति की मौत मामले में जांच में जुटी पुलिस

वाशिंगटन। अमेरिकी पुलिस भारतीय मूल के एक अमीर दंपति और उनकी किशोर बेटी की मौत की जांच में जुटी हुई है। राकेश कमल (57), उनकी पत्नी टीना (54) और उनकी 18 वर्षीय बेटी एरियाना मैसायूसेट्स में 50 लाख डॉलर के अपने आलीशान बंगले में मृत पाए गए थे। उनके बंगले में 11 शयनकक्ष और 13 स्नानघर हैं। नोरफोल्क के डिस्ट्रिक्ट अर्टोनी माइकल मोरिसो ने घटना को "घरेलू हिंसा" करार दिया, क्योंकि राकेश के घबरे के पास से एक बंदूक बरामद की गई है। पुलिस परिवार के तीन सदस्यों की मौत की जांच कर रही है और घटना की वजह का पता लगा रही है। दस्तावेजों के अनुसार टीना और उनके पति ने 2016 में "एडुनोवा" कंपनी खोली थी, लेकिन दिसंबर 2021 में यह बंद हो गई। डिस्ट्रिक्ट अर्टोनी ने बताया कि इन तीनों के शव तब मिले जब उनका एक परिचित एक या दो दिन से उनसे बात न होने के बाद उनका हालचाल लेने उनके घर पहुंचा।

सेना से मुठभेड़ में आठ उग्रवादी मारे गए

- पाक में दो अलग-अलग घटनाओं में की कार्रवाई

इस्लामाबाद। पाक के सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में कम से कम आठ उग्रवादी मारे गए। यह मुठभेड़ पाकिस्तान में दो अलग-अलग घटनाओं में हुई। पाक सेना की मीडिया शाखा इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) के अनुसार, खुफिया जानकारी प्राप्त होने के बाद शनिवार और रविवार की दरमियानी रात एक अभियान के दौरान सैनिकों और आतंकवादियों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई, जिसमें पांच आतंकवादियों को मार गिराया गया। सेना के मुताबिक, आतंकवादियों के ठिकाने का भी भंडाफोड़ कर हथियार, गोला-बारूद व विस्फोटकों का जखीरा बरामद किया गया है। सेना ने बताया कि क्षेत्र में छिपे अन्य आतंकवादियों के खाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। बयान के मुताबिक, पाकिस्तान के सुरक्षा बल राष्ट्र के साथ कदम मिलाकर बलुचिस्तान की शांति, स्थिरता और प्रगति को नुकसान पहुंचाने के प्रयासों को विफल करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आईएसपीआर ने बताया कि एक अलग घटना में खैबर पख्तूनख्वा के बाजोर जिले में पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर घुसपैठ की कोशिश कर रहे तीन उग्रवादियों को मार गिराया गया। सेना ने एक अलग बयान में बताया, "मुठभेड़ में तीन उग्रवादियों को मार गिराया गया। मारे गए उग्रवादियों के पास से हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक भी बरामद किए गए। बयान के मुताबिक, पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार से सीमा के उसके हिस्से पर प्रभावी सीमा प्रबंधन सुनिश्चित करने को कहता आ रहा है। अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह अपने दायित्वों को पूरा करे और पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवादी कृत्यों को अंजाम देने के लिए आतंकवादियों को अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल करने से रोके। पाकिस्तान के खैबर-पख्तूनख्वा और बलुचिस्तान में हाल के महीनों में आतंकी हमलों में वृद्धि हुई है।

विरोध के बावजूद... इंडोनेशिया पहुंचे 150 रोहिण्या शरणार्थी

मेदान। हफ्तों तक समुद्री सफर करने के बाद करीब 150 रोहिण्या शरणार्थी इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा प्रांत में एक समुद्र तट पर पहुंचे, जिसमें ज्यादातर बूखे और कमजोर महिलाएं और बच्चे हैं। अधिकारियों ने इंडोनेशिया की ग्रांम प्रधान मुहम्मद अमीरुद्दीन ने कहा कि 53 पुरुषों, 39 महिलाओं और 55 बच्चों का समूह करंग गादीह समुद्र तट पर पहुंचा। उन्होंने बताया कि एक जर्जर, क्षतिग्रस्त लकड़ी की नाव जो उन्हें बांग्लादेश से लेकर आई थी, गांव से कुछ ही दूरी



पर एक प्रकाश स्तंभ द्वीप के तट पर बंधी हुई थी। लंबी यात्रा के बाद शरणार्थियों में से पांच बीमार हो गए थे और स्थानीय निवासियों ने उन्हें भोजन और पानी दिया। वे उनके आगे का ठिकाना तय करने के लिए आग्रहवासी और स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों का इंतजार कर रहे थे। अमरुद्दीन ने कहा, हमने उनकी मदद की क्योंकि वे भूख और निर्जलीकरण के कारण बहुत कमजोर हो गए थे। लेकिन कई लोग उन्हें हमारे गांव में रहने नहीं देना चाहते क्योंकि वे बाद में केवल समस्याएं ही पैदा करने वाले हैं। इंडोनेशिया कि शरणार्थियों में से एक ने बताया कि वे बांग्लादेश के कांवास बाजार शरणार्थी शिविर से इंडोनेशिया के लिए उग्रवाद हुए और एक प्रकाश स्तंभ द्वीप पर पहुंचे। म्यांमा में सुरक्षा बलों के कठोर रवाना होने के बाद से बचने के लिए लगभग 740,000 रोहिण्या भागकर बांग्लादेश पहुंचे थे लेकिन वहां स्थिति खराब है जिसकी वजह से वे पलायन कर रहे हैं। इंडोनेशियाई में भी इनका विरोध बढ़ रहा है। छात्रों की भीड़ ने आसैह प्रांत की राजधानी बांदा आसैह में स्थानीय सामुदायिक हॉल पर हमला कर दिया था जहां पर जहां 137 रोहिण्या ने शरण ले रखी थी।



इंडोनेशिया के सुलावेसी प्रांत में नये साल पर जमकर आतिशबाजी हुई।

किम जोंग की हत्या की साजिश कर रहा साउथ कोरिया

- रिपोर्ट में खुलासा - अमेरिका मदद कर रहा, दोनों देशों की सेना ट्रेनिंग भी कर रही

सियोल (एजेंसी)। साउथ कोरिया की सेना नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन की हत्या की तैयारी कर रही है। न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक साउथ कोरिया ने स्वीकार किया कि उसकी सेना उत्तर कोरिया के किम जोंग उन की संभावित हत्या के लिए सक्रिय रूप से हत्या अभ्यास (डिफेंस मिनिस्टर) कर रही है। साउथ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा - नॉर्थ कोरिया का सामना करने के लिए तानाशाह की हत्या एक ऑप्शन है। इसके लिए हमारी सेना डिल्ट कर रही है। इसके अलावा परमाणु हथियारों की तैयारी को भी ऑप्शन में रखा गया है। इसकी तैयारी भी की जा रही है। हत्या अभ्यास में अमेरिकी सेना भी हमारा साथ दे रही है।



और जासूसी सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बना रहा है। नॉर्थ कोरिया की योजनाएं न्यूज एजेंसी के मुताबिक नॉर्थ कोरिया 2024 में और परमाणु हथियार भी बनाएगा। यह खबर सामने आने के बाद साउथ कोरिया के डिफेंस मिनिस्टर ने बयान जारी किया।

दरअसल, 31 दिसंबर को नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने 2024 के लिए अपना एक प्लान बताया था। इसके तहत नॉर्थ कोरिया 2024 में 3

की हत्या के बारे में खुलकर बात करना संभव नहीं है पर हमारी सेना इसकी ट्रेनिंग कर रही है। इनमें हवाई युद्धाभ्यास, प्रमुख सुविधाओं पर छापे और इनडोर मॉप-अप की तैयारियों की जा रही हैं। यूएस आर्मी स्पेशल फोर्स और हमारी सेना ने दिसंबर में भी डिल्ट की थी।

साउथ कोरिया का साथ क्यों दे रहा अमेरिका नॉर्थ कोरिया ने मार्च 2023 में पहली बार अपने परमाणु हथियार दुनिया को दिखाए थे। नॉर्थ कोरिया ने अपने परमाणु हथियारों को हवाई-31 नाम दिया है। न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स का मानना है कि नॉर्थ कोरिया के हथियार बेशक छेपे हैं फिर भी इन्हें इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों पर लगाकर अमेरिका और साउथ कोरिया में तबाही मचाई जा सकती है। यही वजह है कि अमेरिका, साउथ कोरिया का साथ दे रहा है।

अमेरिकी राजनीति में उलझे पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के लिए चुनौतीभरा होगा 2024

न्यूयॉर्क। नया साल किसके लिए कैसा होगा ये तो ज्योतिष ही बेहतर बता सकता है। पर इतना जरूर है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर चल रहे मुद्दों की फेहरिशत देखते हुए लगता है कि उनके लिए 2024 काफी चुनौती वाला होगा। कानूनी शिकंजे में फंसे ट्रंप चुनाव लड़ने के लिए तयप रहे हैं लेकिन अमेरिका कानून फिलहाल उन्हें अनुमति देना नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है कि वे चुनाव लड़ने से वंचित हो जाएं। 2024 में ट्रंप को मतदान से हटाने की मांग करने वाले मुकदमे भी 14 राज्यों में लंबित हैं, जिनमें युद्ध के मैदान परिजोना, नेवादा और विस्कॉन्सिन भी शामिल हैं। और यह संभावना है कि देश की सर्वोच्च अदालत इस पर अंतिम निर्णय लेगी कि ट्रंप मेन और अन्य राज्यों में मतदान में उपस्थित होंगे या नहीं। मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है, पूर्व राष्ट्रपति अपने कई कानूनी संकटों के बावजूद अभी भी रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के नामांकन की दौड़ में सबसे आगे हैं, लेकिन उनका अभियान और अदालती फेज 2024 में तेजी से ओवरलेप होने वाले हैं, जिससे उनके लिए ब्रैड हाउस में अपने दूसरे कार्यकाल के लिए स्वतंत्र रूप से प्रचार करना कठिन हो जाएगा। निचली मैनहट्टन अदालत में ट्रंप के नागरिकों से धोखाधड़ी के मुकदमे में जनरली की शुरुआत में मामलों में समाप्त रहस्य निर्धारित है, जिससे उनके रियल एस्टेट साम्राज्य के भविष्य को खतरा है, जिसने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई और बाद में उन्हें ब्रैड हाउस तक पहुंचाया। न्यूयॉर्क एजी ने एक नागरिक धोखाधड़ी का मामला लाया है, जिसमें उन पर 250 मिलियन डॉलर के जुर्माने का मुकदमा किया गया है, जबकि पीठासीन न्यायाधीश एगोरिन ने पहले ही न्यूयॉर्क में व्यापार करने के लिए उनके व्यापार लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। लेकिन एक अपील अदालत ने इसे स्थगित कर दिया। उनके अधिकांश चुनावी तोड़फोड़ के मामले मार्च 2024 में सामने आए जब न्यायाधीश चुटकन के समक्ष वाशिंगटन डीसी जिला अदालतों में वास्तविक सुनवाई शुरू हुई और जॉर्जिया में रीको अधिनियम के तहत फुटन काउंटी रैकेटियरिंग मामले की सुनवाई शुरू हुई। न्यूयॉर्क अर्टोनी जनरल लैटिटिया जेम्स द्वारा लागू एक मुकदमे में न्यायाधीश आर्थर एगोरिन का शीर्ष दावा है, उन्होंने फेसला सुनाया कि ट्रंप और उनकी कंपनी ने अपनी संपत्ति और निवल मूल्य को बड़े पैमाने पर बढ़ा-चढ़ाकर पेश करके, सोद करके और झूठा हिसाब करके बैंकों, बीमाकर्ताओं और अन्य लोगों को धोखा दिया मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि ट्रंप ने गलत काम करने से इनकार किया है और कहा है कि वित्तीय दस्तावेजों में वास्तव में उनकी कुल संपत्ति कम बताई गई है। जबकि उनके व्यापारिक सहयोगियों ने उनकी संपत्ति 3.5 बिलियन का अनुमान लगाया था, ट्रंप का अपना अनुमान 6.5 बिलियन था। धोखाधड़ी के लिए 250 मिलियन डॉलर का जुर्माना भरना ट्रंप के लिए समुद्र में एक बूद के समान है, लेकिन न्यूयॉर्क में अपने व्यापार लाइसेंस खोने से एक व्यवसायी के रूप में उनकी विश्वसनीयता, अखंडता और छवि को नुकसान होगा।

अमेरिका, साउथकोरिया का नामोनिशान मिटाने दें: किम जोंग

- उत्तर कोरियाई नेता ने सेना को दिए आदेश

सियोल (एजेंसी)। अगर अमेरिका और दक्षिण कोरिया उसके खिलाफ उकसावे की कार्रवाई करते हैं तो उनका नामोनिशान मिटा दें। सेना के यह सख्त आदेश दिए हैं उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन ने। उनके जानकारी सारकारी मीडिया ने दी। पिछले सप्ताह सत्तारूढ़ दल की पांच दिवसीय बैठक में किम ने कहा कि वह इस साल तीन और सैन्य जासूसी उग्रहण का प्रक्षेपण करेंगे, अधिक परमाणु हथियारों का उत्पादन करेंगे और हमला करने वाले ड्रोन तैयार करेंगे। पर्यवेक्षण का कहना है कि यह प्रयास भविष्य में अमेरिका पर कूटनीति दबाव

बढ़ाने के लिए है। सेना के कमांडिंग अधिकारियों के साथ रविवार को हुई बैठक में किम ने देश के परमाणु हथियारों के संदर्भ में कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के खातिर "सबसे कीमती हथियार" को हमले के लिए तैयार रखना जरूरी है। जानकारी के अनुसार, किम ने इस बात पर जोर दिया अगर वे (अमेरिका, दक्षिण कोरिया) उत्तर कोरिया के खिलाफ उकसावे की कार्रवाई करते हैं तो "हमारी सेना को बिना हिचकिचाए अपने सभी प्रमुख संसाधनों को जुटाकर उन्हें पूरी तरह से खत्म करने के लिए जवाबी हमला करना चाहिए। संभावना जताई जा रही है कि नवंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले उत्तर कोरिया द्वारा इस साल हथियारों का परीक्षण में और तेजी लाई जा सकती है।

चुनाव से पहले देश छोड़ सकते हैं पूर्व पीएम नवाज शरीफ

इस्लामाबाद (एजेंसी)। भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते नवाज शरीफ ने 2017 में प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया था। जुलाई 2018 में, उन्हें लंदन में लक्जरी अपार्टमेंट की खरीद पर 10 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। नवाज के परिवार ने 1999 में स्टील मिलें कैसे स्थापित कीं, इसकी जानकारी पाकिस्तान के आवाग को नहीं देने को लेकर उसी साल दिसंबर में उन्हें सात साल की अतिरिक्त सजा सुनाई गई थी। वह चार साल ब्रिटेन के लंदन में स्वतंत्र निर्वासन में रहे। अक्टूबर में नवाज पाकिस्तान लौटे और चुनाव में एकदिवस रूप से हिस्सा ले रहे हैं। इसी बीच खबर आ रही है कि शरीफ एक बार फिर अपना वतन छोड़ सकते हैं। वरिष्ठ वकील पेट्रिज अहसन ने हाल ही में दावा किया था कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के नेता नवाज शरीफ आगामी आम चुनाव से पहले एक बार फिर देश छोड़ सकते हैं और विदेशों से चुनाव परिणामों की निगरानी कर सकते हैं।



आयोग (ईसीपी) और अंतरिम सरकार की आलोचना की और उन पर आगामी चुनावों में नवाज शरीफ के लिए दो-तिहाई बहुमत सुरक्षित करने के लिए काम करने का आरोप लगाया। वरिष्ठ वकील ने पीटीआई और ईसीपी के बीच चल रहे टकराव के बारे में भी चिंता जताई और चुनाव आयोग की प्राथमिकता पर सवाल उठाया और विवादां में उलझने के बजाय चुनाव कानून पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव दिया। अहसान ने विशेष रूप से पीटीआई के चुनाव चिह्न को बहाल करने के पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को

चुनौती देने के ईसीपी के फैसले की आलोचना की विशेष पार्टी के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ एक बार फिर देश छोड़ फरार होने की फिराक में हैं। दावा किया जा रहा है कि वह 8 फरवरी को होने वाले आम चुनाव से पहले ही देश छोड़ सकते हैं। नवाज अक्टूबर 2023 को ही लंदन से लौटे हैं और चुनाव में काफी एकदिवस नजर आ रहे हैं लेकिन इस बीच उनके देश छोड़ने की अटकलों पर बहस छिड़ गई है। नवाज शरीफ एक बार फिर पाकिस्तान छोड़ने की फिराक में हैं। वह चुनाव से पहले देश छोड़ सकते हैं और विदेश में शरण ले सकते हैं। नवाज भ्रष्टाचार के दोषी हैं लेकिन कोर्ट ने एक अपील पर उनकी दोषािद्धि और सजा को पलट दिया है और इसलिए वह चुनाव भी लड़ सकते हैं। वह हाल ही में ब्रिटेन निर्वासन से लौटे थे और आम चुनाव में चौथी बार प्रधानमंत्री पद की रस में थे। इस बीच उनके देश छोड़ने की अटकलों पर पाकिस्तान में बहस छिड़ गई है।

पाकिस्तान में इमरान की राजनीति को खत्म करने में जुटा सैन्य प्रशासन

इस्लामाबाद (एजेंसी)। पाकिस्तान का सैन्य प्रतिष्ठान एक इस्तरह के नेता को खत्म करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है। इतना ही नहीं यह सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रकार की रणनीति का उपयोग हुआ है, कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ को 8 फरवरी को होने वाले आम चुनावों में शून्य अंक मिले। कई मामलों में खान पर मामला दर्ज करने और उन्हें अयोग्य ठहराने से लेकर उनकी पार्टी का चुनाव चिह्न छीनने तक, सत्ता प्रतिष्ठान ने जनता को धमित करने के लिए कई तरीके अपनाए हैं। इसके अलावा, सेना ने पुराने नेतृत्व को बहाल कर दिया है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज नेता नवाज शरीफ को सत्ता से हटाने के रास्ते में खड़ी अधिकांश बाधाओं को हटा दिया है। धमकियों और जबरदस्ती का सामना कर रही पीटीआई को अपने खिलाफ मौजूदा स्थिति

का मुकाबला करने के लिए एक बेहतर चुनावी रणनीति का आवश्यकता होगी। राष्ट्रीय स्तर पर और पंजाब और सिंध जैसे प्रमुख प्रांतों में कार्यवाहक सरकारों को एक नौकरशाही द्वारा प्रबंधित किया जा रहा है जिसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर चुनाव पूर्व धोंधली और हेरफेर को बढ़ावा देना है। एक परिचित पत्रकार ने यह भी सुझाव दिया कि हम नवाज शरीफ को बधाई दे सकते हैं क्योंकि पीएमएल-एन की जीत कामोबेश सुनिश्चित है। बेशक, बहुमत, गठबंधन की संभावनाओं और पंजाब और अन्य प्रमुख क्षेत्रों पर नियंत्रण के बारे में विशेष बातें अनिश्चित बनी हुई हैं। पीएमएल-एन का अंतिम स्कोर काफी हद तक इस बात पर निर्भर होगा कि शरीफ पार्टी की आंतरिक मातौशीलता, खासकर अपने भाई और बेटी के बीच चल रही प्रतिद्वंद्विता को कैसे प्रबंधित करते हैं। यह मानकर कि चुनाव सेना की पसंद के

मुताबिक होते हैं, तब भी उसके सामने एक समस्या होगी। इमरान खान की लोकप्रियता को कैसे खत्म किया जाए, जो न केवल व्यक्ति के बारे में है, बल्कि उन सभी कारकों के बारे में है जो खान की स्थायी लोकप्रियता में योगदान करते हैं। अधिकतर युवा लोगों की भीड़ में केवल जातीय बलूच शामिल नहीं थे जो महाराज का समर्थन कर रहे थे क्योंकि वह उनका और उनके उद्देश्य का प्रतिनिधित्व करती थी। वहां सारकी बोलने वाले युवा भी थे। जो चीज उन्हें एक साथ बांधती थी वह गहरी स्थिति के बारे में चिंता थी, जो उन्हें महाराज और उसके कारण के प्रति सहानुभूति रखती है। दक्षिण-पश्चिम पंजाब में युवा भीड़ में राज्य स्थापना के प्रति बड़ी चिंता के कारण खान के प्रति समान भावनाएं थीं। खान की लोकप्रियता को खत्म करना एक कठिन काम है क्योंकि सेना, एक रूढ़िवादी संस्था होने के नाते, बॉक्स के बाहर सोचने में



असमर्थ है। यह अवधारणा करने में असमर्थ कि खान एक राजनीतिक विचार में बदल गया है जिसे अलग तरीके से लड़ने की जरूरत है, दृष्टिकोण उस व्यक्ति को लक्षित करना है। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और राज्य के गोपनीयता

मानदंडों को तोड़ने के कई मामले उनके समर्थन आधार को यह समझाने के लिए लागू हुए हैं कि उनका भ्रष्टाचार विरोधी एजेंडा खारजला है और वह राज्य की अखंडता के लिए सबसे बड़ा दृष्टिकोण और राज्य के गोपनीयता

पाकिस्तान में जेयूआई-एफ प्रमुख फजलुर रहमान के काफिले पर हमला

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बंदूकधारियों ने जेयूआई-एफ प्रमुख फजलुर रहमान के काफिले पर घात लगाकर हमला किया जमीयत उलेमा-ए-इस्लाम-फजल (जेयूआई-एफ) प्रमुख मोलाना फजलुर रहमान के काफिले पर 31 दिसंबर को हमला किया गया। क्योंकि अज्ञात बंदूकधारियों ने डेरा इस्माइल खान में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट (पीडीएम) नेता के काफिले पर गोलीबारी की। घटनाक्रम से परिचित लोगों ने बताया कि यह आकलन करना जल्दबाजी होगी कि हमलों का नेतृत्व किसने किया, लेकिन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) और उन तत्वों की ओर उगली उड़ाई जो नहीं चाहते कि 8 फरवरी को चुनाव हों। पाकिस्तानी गृह मंत्रालय ने भी 29 दिसंबर को खतरे का अलर्ट जारी किया था। शुरुआती जांच से पता चला है कि मोलाना फजलुर रहमान के काफिले की दो गाड़ियां थीं जो इंधन भरने के लिए थारक टोल प्लाजा पर आई थीं, जबकि टोल प्लाजा पर हमला चल रहा था। घटनाक्रम से परिचित लोगों ने बताया कि एक गोली एक वाहन पर लगी, लेकिन रहमान वाहन में नहीं थे और अब्दुल अपने गांव में थे। उनकी पार्टी के प्रवक्ता आतिफ गौरी ने हमले की निंदा कर तत्काल जांच की मांग की। उन्होंने बताया कि खैबर पख्तूनख्वा और बलुचिस्तान में उनकी पार्टी के लिए कोई समान अवसर नहीं है।



लाल सागर में हूतियों से निपटने ब्रिटेन करेगा कार्यवाही



- ईरान के हूती विद्रोहियों के कारण लाल सागर में अवरुद्ध यातायात

लाहौर (एजेंसी)। तेल अवीव (ईएमएस)। ईरान के हूती विद्रोहियों के कारण लाल सागर में अवरुद्ध यातायात के मद्देनजर अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य अभियान में ब्रिटेन के शामिल होने की प्रवृत्त संभावना है। रिपोर्ट में ब्रिटेन सरकार के सूत्र का हवाला देते हुए कहा गया है कि ब्रिटेन, अमेरिका और संभवतः एक अन्य यूरोपीय देश जल्द ही समुद्र यातायात में हूतियों के खिलाफ एक साथ हवाई हमले शुरू करेंगे।

सूत्र ने कहा कि यूके सरकार को ओर से कोई भी कार्रवाई सीमित लेकिन महत्वपूर्ण होगी। हूती विद्रोही लाल सागर शिपिंग लेन में इजरायल से जुड़े जहाजों पर बार-बार हमला कर रहे हैं। इन्हें ईरान की तरफ से समर्थन मिला हुआ है। हूतियों का कहना है कि वह फिलिस्तीन के समर्थन में हैं और इस कारण इजरायल से जुड़े जहाजों को निशाना बना रहे हैं। 7 अक्टूबर को हमले के बाद से इजरायल लगातार गाजा पर बम बरसा रहा है।

लाल सागर दुनिया के प्रमुख व्यापारिक मार्गों में से है। वैश्विक व्यापार का 12 फीसदी इस रास्ते से होता है। हूती विद्रोहियों के खतरे से डेलाए हुए लाल सागर में अमेरिका को इस महाने की शुरुआत में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक टास्क फोर्स स्थापित करना पड़ा। अदन की खाड़ी से लाल सागर में जाने के लिए बेहद पतले वाव अल-मंडेब जलडमरूमध्य से गुजरना पड़ता है, जहां हूती विद्रोही एक्टिव हैं। लाल सागर से फिर जहाज स्वेज नहर में जाते हैं। यूरोप और एशिया के बाजारों को जोड़ने का यह प्रमुख समुद्री मार्ग है। हूती विद्रोहियों ने पहले ही हमले किए हैं, जिसके कारण कई जहाज क्षतिग्रस्त हुए। हमलों को देखते हुए कई शिपिंग कंपनियों ने वाव अल-मंडेब जलडमरूमध्य में जहाजों को न जाने का आदेश दिया है। कुछ प्रमुख शिपिंग कंपनियां हूतियों से बचने के लिए पूरे अफ्रीका के निचले हिस्से से अपने जहाजों को भेज रही हैं, जिससे यात्रा का समय और लागत बढ़ रही है। रविवार को अमेरिका ने हूती विद्रोहियों पर कड़ा प्रहार किया। अमेरिका ने हूती विद्रोहियों की तीन नाव डूबो दी, जिसमें 10 की मौत हो गई।

संपादकीय

सुधरें और सुधारें

दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले ग्रेगोरियन कैलेंडर पर साल बदल गया। अब हम साल 2024 के आने के सुखद एहसास से भरे हुए हैं। हम मनुष्यों ने समय के साथ बढ़ते हुए इस धरती पर अनगिनत अच्छे मुकाम देखे हैं और तमाम जीवों के बीच सबसे ज्यादा तरकीबी है, इसलिए हम प्राकृतिक रूप से बहुत आशावादी हैं। संदेव बेहतर बदलाव के इच्छुक और आने वाले हर पल के लिए अनायास खुशी से सरबराहो। सदियों से हमें हर दिन उगते सूरज के साथ पढ़ाया और बताया जाता रहा है कि आज कुछ न कुछ बेहतर होगा। पिछले तीन-चार वर्षों में दुनिया ने एक भयानक महामारी का कहर झेला है। बेशक, बीता साल 2023 हमारे लिए महामारी से उबरने का वर्ष रहा, किंतु बुरे तजुबे के बावजूद हम ज्यादा कुछ सीख नहीं पाए। तभी तो दुनिया में कम से कम दो जगह, यूक्रेन और गाजा में युद्ध का मंजर है। जहां मनुष्य ही मनुष्य रक्त के प्यासे हो रहे हैं और शायद 2024 में उनकी यही कामना होगी कि कथित दुश्मन का मान मर्दन हो जाए या दुश्मन के खून की नदियां बह जाएं। अतः नए साल में पहली आकांक्षा यही उमड़ती है कि किसी भी तरह इस साल युद्ध से हम बाज आए। युद्ध हो या परस्पर हिंसा वास्तव में यह समझता है हम मानवों की बुद्धिमत्ता पर सवाल है। जाति, नस्ल व सांप्रदायिक आधार पर होने वाले शर्मनाक संघर्ष धर्म, मजहब और शिक्षा पर सवाल हैं। बेहद विकसित कहलाने वाले देश अमेरिका में कोई नफरती व्यक्ति बंदूक उठाता है और लोगों को अंधाधुंध मारने लगता है। अन्य उपरती महाशक्ति चीन में कोई सत्ता से अलग विचार रखता है, तो मिटा दिया जाता है। और डिजिटल दुनिया, अक्सर ये दो कथित महाशक्ति देश मानवाधिकार और शासन-प्रशासन के लिए दूसरे देशों पर नसीहतों की बौछार कर देते हैं। दुनिया की महाशक्तियों का वैश्विक कुतर्क शर्मनाक है, कोई इंजरायल के साथ खड़ा है कि वह दुश्मनों को बर्बरता के साथ खत्म करे, तो कोई भारत को सलाह दे रहा है कि आतंकियों से संवाद करे और उनके अनुकूल हल निकाले। नए साल में क्या वैश्विक स्तर पर दुनिया के महाशक्ति देश ज्यादा न्यायपूर्ण और समावेशी होंगे? ध्यान रहे, दूसरे देशों में घुसने का दुस्साहस पहले अमेरिका ही ज्यादा करता था, वह अफगानिस्तान को अपने हाथ में खींच लीट गया, पर अब रूस और चीन के साम्राज्यवादी मनसुबे आए दिन चिंता बढ़ा रहे हैं। जहां अमेरिका, रूस और चीन जैसे वीटो पावर वाले देश किसी न किसी तरह की मन्मानी को तवजुह देते हैं, वहां संयुक्त राष्ट्र बस एक नाम पट्टिका भर होता जा रहा है। क्या भारत, ब्राजील, संयुक्त अरब अमीरात, जापान जैसे देशों की भूमिदारी को स्थाई बनाते हुए संयुक्त राष्ट्र विश्व हित में जागेगा? यह नया साल अनगिनत उम्मीदें लिए आया है। कोरोना के बाद सुधरती अर्थव्यवस्थाओं को दुस्साहस, अत्यधिक मुनाफाखोरी, भ्रष्टाचार और किसी भी तरह की लूट से बचते हुए गरीबों को ध्यान में रखकर काम करना होगा। नए साल में हर किसी को अपनी भूमिका के बारे में तार्किक ढंग से सोचना होगा। परिवार-समाज में खुशी की बुनियाद यही है कि हम खुद के लिए जैसे व्यवहार करनी उम्मीद दूसरों से करते हैं, हमें सभी के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। नए साल में यह संकल्प हर किसी के लिए जरूरी है कि हम समाधान में भागीदार बनेंगे, समस्यारण नहीं बढ़ाएंगे।

आज का राशीफल

मेष	शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशावादी सफलता मिलेगी। किसी रिश्तेदार के आगमन से मन प्रसन्न होगा। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। अनावश्यक कष्टों का सामना करना पड़ेगा।
वृषभ	पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। खान-पान में संतुलन बना कर रखें। मकान, सम्पत्ति व वाहन की दिशा में किया गया प्रयास सफल होगा।
मिथुन	दाम्मल्य जीवन सुखमय होगा। आय के नये स्रोत बनेंगे। भाग्यवश कुछ ऐसा होगा जिसका आपको लाभ मिलेगा। आय और व्यय में संतुलन बना कर रखें। रुपए पैसे के लेन-देन में सावधानी अपेक्षित है।
कर्क	पारिवारिक जनों का सहयोग मिलेगा। स्थानान्तरण व परिवर्तन की दिशा में सफलता मिलेगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। किसी बहुमूल्य वस्तु के पाने की अभिलाषा पूरी होगी। धन लाभ होगा।
सिंह	रोजी रोजगार की दिशा में सफलता मिलेगी। जीवनसाथी का सहयोग व सान्निध्य मिलेगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। यात्रा देहात की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी। व्यर्थ की भावनाएं छोड़ें।
कन्या	पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। कार्यक्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। भाग्यवश कुछ ऐसा होगा जिसका आपको लाभ मिलेगा। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा।
तुला	आर्थिक योजना सफल होगी। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। किसी रिश्तेदार से तनाव मिल सकता है। यात्रा देहात की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी।
वृश्चिक	पारिवारिक जनों का सहयोग मिलेगा। रोजी रोजगार की दिशा में प्रगति होगी। अमीत्य कर्मचारी का सहयोग रहेगा। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे।
धनु	जीवनसाथी का सहयोग व सान्निध्य मिलेगा। उदर निकास या त्वचा के रोग से पीड़ित रहेंगे। फिजूलखर्चों से बचें अन्यथा कर्ज की स्थिति आ सकती है। प्रणय संबंध प्रगाढ़ होंगे। धन हानि की संभावना है।
मकर	दाम्मल्य जीवन सुखमय होगा। राजनैतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। वाहन प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है।
कुम्भ	गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। खान पान में संयम रखें। स्वास्थ्य शिथिल रहेगा। आमोद प्रमोद के साधनों में वृद्धि होगी।
मीन	पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। आय के नवीन स्रोत बनेंगे। नेत्र विकार की संभावना है। यात्रा देहात की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी।

विचारमंथन

(लेखक-सनत जैन)
विश्व हिंदू परिषद ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है, कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के नाम पर कई जानसज टगी का धंधा कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने लोगों को ऐसे गोरखधंधा करने वालों से आगाह किया है। विहिप ने कहा है, कि साइबर अपराधियों द्वारा सोशल मीडिया पर संदेश भेजकर, मंदिर के नाम पर जो टगी का धंधा कर रहे हैं, उससे बचें। दरअसल सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के पास एक मैसेज भेजा जा रहा है। इस संदेश के साथ ही वयुआर कोड भी होता है। इसको स्कैन करके लोगों से दान राशि मांगी जा रही है।

फर्जी तरीके से चलाए जा रहे इस कैंपेन से टगों के खाते में रोजाना लाखों रुपए पहुंच रहे हैं। इस तरह की शिकायत विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने करते हुए, सरकार से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने दिल्ली के गृह मंत्रालय और उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रमुख को भी इस आशय का पत्र भेजकर, इस तरह की टगी करने वालों पर लगाम लगाने की मांग की है। इतिहास गवाह है कि भगवान राम के नाम पर टगी करने का धंधा कोई नया नहीं है। हजारों वर्षों से यह धंधा चला आ रहा है। लोगों की आस्था को, देखते हुए फर्जी साधु-संत और टग हमेशा से भगवान राम के नाम का उपयोग टगी करने के लिए करते रहे

हैं। जो आज भी कर रहे हैं। भगवान राम की कृपा से लोगों का व्यापार, कारोबार और राजनीति उनके नाम पर हजारों वर्ष से होती आ रही है। अब इसमें भाजपा से जुड़े हुए अनुवांशिक संगठन और हिंदू संगठन के लोग भी भगवान राम के नाम पर इस तरह की लूट में शामिल हैं। जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है। अब घर बैठे लाखों और करोड़ों रुपए की टगी की जा रही है। जब से राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ है। उसके बाद से ही राम के नाम पर चंदा एकत्रित किया जा रहा है। जिस नाम से चंदा एकत्रित किया जा रहा है, उस चंदा को संस्था में नहीं भेजकर लोग अपने पास रख लेते हैं। पिछले कुछ महिनों में जिस तरीके से रामलता

की प्राण प्रतिष्ठा और राम मंदिर निर्माण को लेकर जो प्रचार-प्रसार हुआ और लगातार हो रहा है। उसका असर पूरे देश में पड़ा है। हर आदमी को पता है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। राम मंदिर के निर्माण और अन्य कार्यों के लिए लोग खुलकर चंदा दे रहे हैं। राम के नाम पर अब, साइबर टगी के भी कई द्वार खुल गए हैं। इसको नियंत्रित कर पाना शायद सरकार के लिए भी संभव न हो। लोगों की भावनाओं को किस तरीके से प्रभावित किया जाता है। किस तरह से उनकी आस्था का इस्तेमाल टगी के लिए किया जाता है। इसको टगी करने वाले बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं। राम मंदिर का निर्माण जब से शुरू

हुआ है। उसके बाद से ही बड़े-बड़े आरोप चंदे को लेकर लगे रहें हैं। चंदे का कोई हिसाब किताब कभी भी विश्व हिंदू परिषद ने भक्तों को नहीं दिया। विश्व हिंदू परिषद भी चंदे को लेकर तरह-तरह के आरोप लगाते रहे। राम मंदिर निर्माण के लिए जो जमीन खरीदी गई थी, उसमें भी करोड़ों रुपए के घोटाले की बात सामने आई। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भी दस्तावेजों के साथ कई आरोप लगाए थे। लेकिन उन पर अभी तक कोई जवाब नहीं की गई। अभी घोटाले में हजारों नए लोग भी शामिल हो गए हैं। जिसके कारण विश्व हिंदू परिषद की चिंता बढ़ गई है। भगवान राम के बारे में कहा जाता है, कि राम नाम की लूट

है। लूट सके तो लूट। इस लूट में शामिल होने के लिए राम का नाम ही पर्याप्त है। राम सभी के हैं। राम का नाम लेने से सभी को लाभ प्राप्त होता है। भगवान राम का नाम लेने से वैतरणी पार हो जाती है। राम के नाम पर टगी तो बहुत छोटी सी बात है। बहरहाल देश के 140 करोड़ भक्तों तथा विदेशों में करोड़ों राम भक्तों की संख्या को देखते हुए, टगों ने भी टगी करने के नए-नए तरीके इजाद कर लिए हैं। साइबर के माध्यम से टगी का पहिया तेजी के साथ घूम रहा है। भारत में जिस तरह की आस्था राम के प्रति जगाई गई है, उसके बाद

रातों-रात, राम का नाम लेकर करोड़ों प्रति और लखों बना जा सकता है। टीवी चैनलों और समाचार पत्रों में जिस तरह से भगवान राम का गुणगान किया जा रहा है, उससे भक्तों की राम के प्रति निष्ठा और आस्था भी बढ़ी है। निश्चित रूप से टगों के लिए यह सबसे सुनहरा मौका है, जिसका लाभ वह उठा रहे हैं।

हिंसा व संघर्ष से उपजी अशांति का साल

पुष्परजन

इस साल 28 जनवरी से 4 फरवरी, 2023 तक अमेरिका और कनाडा के आसमान में चीनी गुब्बारे उड़ने की खबर पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई। इन हाई-एल्टीट्यूड गुब्बारों को चीन के जासूसी गुब्बारे बताया गया। कुछ गुब्बारे अमेरिका ने मार गिराये। इसी तरह से चीनी गुब्बारे 40 अन्य देशों के आसमान में देखे गए थे। इस घटना के बाद अमेरिकी विदेशमंत्री एंटीनी ब्लिंकेन ने अपनी पेशेचिंग यात्रा स्थगित कर दी थी। 15 जनवरी, 2023 को नेपाल के पोखरा में येति एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में 5 भारतीयों समेत 72 यात्रियों की मौत हो गई थी। इस हादसे की प्राइमरी रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि पलाइंग पायलट ने लैंडिंग के लिए कॉम्पिट में लगे प्लेन लीवर की जगह गलती से इंजन की पावर सप्लाई बंद कर दी थी। जनवरी, 2023 में अमेरिकी शॉर्ट सेलर कंपनी 'हिंडेनबर्ग रिसर्च' ने अदानी ग्रुप पर शेयरों में मैनिपुलेशन का आरोप लगाया था। गौतम अदानी दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स थे, लेकिन हिंडेनबर्ग रिपोर्ट के आते ही उनकी संपत्ति 120 अरब डॉलर से घटकर 39.9 अरब डॉलर रह गई थी। यानी, रातों-रात अदानी की संपत्ति घट कर एक-तिहाई हो गई थी 6 फरवरी, 2023 को तुर्किये और सीरिया में 7.8 और 7.5 तीव्रता के दो विनाशकारी भूकंपों से तबाही मच गई। 50 हजार से ज्यादा और सीरिया में 8 हजार से ज्यादा यानी, कुल 59 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। 10 मार्च, 2023 को खबर आई कि शी जिनिंग को चीनी संसद ने तीसरी बार राष्ट्रपति बनाने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया। अप्रैल, 2023 में भारत, चीन को मध्य एशिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बना। उसी महीने फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बन गया, जिससे गठबंधन की संख्या दोगुनी हो गई। अप्रैल के मध्य में सूडानी सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक रेपिड सपोर्ट फोर्स के बीच हिंसा भड़क उठी थी। इस हिंसा के कारण सूडान से बड़े पैमाने पर विस्थापन शुरू हुआ, जिसका बुरा असर पड़ोसी देशों पर पड़ना ही था। मई, 2023 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की कि कोविड-19 अब महामारी नहीं

रहा। शनिवार 6 मई, 2023 को लंदन के वेस्टमिंस्टर आब्बे में चार्ल्स तृतीय और रानी कैमिला का राज्याभिषेक हुआ। जून, 2023 की बड़ी खबर टाइटेनिक का मलबा देखने गई पनडुब्बी भारी दबाव के कारण विस्फोट का शिकार हो गई। पता चला कि इस पनडुब्बी में सवार एक पाकिस्तानी अरबपति समेत सभी पांच लोगों की मौत हो चुकी है। जून, 2023 में अमेरिकी और ब्रिटिश वैज्ञानिकों की एक टीम ने शुक्राणु या अंडे के बगैर दुनिया का पहला मानव सिंथेटिक भ्रूण बनाने में सफलता पाई। भारत के भगोड़े और खालिस्तानी मुहिम चलाने वाले हरदीप सिंह निजजर की 18 जून, 2023 को कनाडा में हत्या कर दी गई। उसकी हत्या उसी गुरुद्वारे के बाहर की गई, जिसका वह अध्यक्ष था। इस मामले ने असली तूल तब पकड़ा, जब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने 18 सितंबर को इस हत्याकांड में भारत के शामिल होने की बात कही। यही नहीं, भारतीय राजनयिक को देश छोड़ने का आदेश दिया गया। इस आरोप का भारत ने कड़ा जवाब दिया और दोनों देशों के बीच संबंध लगातार बिगड़ते चले गए। 23 जून, 2023 को रूस से खबर आई कि पहला विरोधी प्राइवेट आर्मी 'वैगनर ग्रुप' के लड़ाकों ने रोस्तोव-ऑन-डॉन पर कब्जा कर लिया और मार्स्को की ओर कूच कर गये हैं। मशहूर उद्योगपति एलन मस्क ने साल 2022 में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर का अधिग्रहण कर लिया था। 23 जुलाई, 2023 को एलन मस्क ने एक फ़ैसले से सभी को चौका दिया था। ब्लू टिक यानी वैरिफाइड अकाउंट के लिए फ़ीस लगाने के साथ ही एलन मस्क ने ट्विटर का मशहूर नीली चिड़िया वाला लोग बदलकर कर एक्स कर दिया। जुलाई, 2023 में भारतीय कंपनियों ने रूसी तेल कंपनियों को रुबल के बदले चीनी मुद्रा युआन में भुगतान करना आरंभ किया। जुलाई में ही नाइजर के राष्ट्रपति मोहम्मद बजौम को एक तख्तापलट के जरिये पद से हटा दिया गया था। अगस्त, 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अपना यान सफलतापूर्वक उतरने वाला भारत, विश्व का पहला देश बना। उसी महीने अमेरिका के हवाई स्थित माउंट डीप पर भीषण आग में 100 से अधिक लोग मारे गये। इस भयावह आग ने 17 हजार एकड़ हरियाली को राख में बदल दिया था। 24 अगस्त, 2023 को खबर आई कि वैगनर समूह के नेता येवगेनी



प्रिगोडिन की विमान दुर्घटना में मौत हो गई है। येवगेनी प्रिगोडिन रूसी सैन्य कमांडर थे, जिन्होंने पुतिन को सत्ता से हटाने के वास्ते वैगनर ग्रुप बनाया था। अगस्त, 2023 में पाकिस्तानी अदालत ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में पूर्व पीएम इमरान खान को तीन साल जेल की सजा सुनाई। उसी महीने अमेरिका से खबर आई कि जॉर्जिया चुनाव में गडबडी के आरोप में डोनाल्ड ट्रंप को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाद में ट्रंप रिहा कर दिये गये। 8 सितंबर को अफ्रीकी देश मोरक्को में 6.8 तीव्रता के भूकंप में 2900 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इसी दिन भारत में जी-20 बैठक की तैयारी चल रही थी और विदेशी मेहमानों के आने का दौर जारी था। एशियाई खेल 23 सितंबर को शुरू हुए, जहां भारत ने 100 से अधिक मेडल हासिल किये। उसी महीने 92 साल के मीडिया मुगल रूपर्ट मर्डोक ने रिटायरमेंट लेने की घोषणा की। हमास और इस्राइल के बीच एक बार फिर साल 2023 में युद्ध भड़क गया। 7 अक्टूबर को सुबह-सुबह हमास ने इस्राइल पर बड़े स्केल पर हमला किया। पूरी दुनिया हिल-सी गई। मल्टी मिसाइल हमलों ने इस्राइल के मशहूर एटी मिसाइल सिस्टम आयरन डोम को भी गच्चा दे दिया। इस हमले में कोई 1200 इस्राइली नागरिक मारे गये। ढाई सौ से अधिक लोगों को हमास ने बंधक बना लिया। जवाबी हमले में

इस्राइल ने 21 हजार से अधिक फिलिस्तीनियों को गाजा वाले इलाके में मार डाला। इस बीच लगभग 100 बंधकों की रिहाई हुई है, लेकिन लड़ाई थम-थम के हो रही है। लड़ाई का सिलसिला 2024 में कब बंद होगा, कहा नहीं जा सकता। गाजा युद्ध का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि इसके हवाले से कई मोचे मिडल ईस्ट के अलग-अलग हिस्सों में खुल चुके हैं। इसमें लाल सागर भी प्रभावित हुआ है, जहां हमास समर्थक हूती विद्रोही यमन के समुद्री मार्ग से गुजरने वाले जहाजों पर गोले बरसा रहे हैं। इसका असर भारतीय मालवाहकों पर भी पड़ने लगा है। 13 दिसंबर, 2023 को डोनाल्ड ट्रंप को पोलैंड के नए प्रधानमंत्री चुने गए। पोलिश संसद के सदस्यों ने देश की संसद में विश्वास मत हारने के बाद पोलैंड के प्रधानमंत्री बनने के लिए डोनाल्ड ट्रंप का समर्थन किया है। साल के अखिर में संयुक्त राष्ट्र ने एक नई रिपोर्ट में कहा कि म्यांमार ने अफ्रीम उत्पादन के मामले में अफगानिस्तान को काफी पीछे छोड़ दिया है। एक खबर चीन से भी। वहां पूर्वी शेडोंग प्रांत, शिदाओ-बे संयंत्र में चौथी पीढ़ी के गैस-कूड परमाणु रिपवटर बिजली संयंत्र का दुनिया का पहला वाणिज्यिक संवाहन शुरू किया है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि साल 2023 शांति से नहीं गुजरा है। बस हम यही उम्मीद नागरिक मारे गये। ढाई सौ से अधिक लोगों को हमास ने बंधक बना लिया। जवाबी हमले में

बड़ा खतरा नहीं मगर सतर्कता जरूरी

ज्ञानेंद्र रावत

देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया के देशों से निगरानी बढ़ाने का आग्रह किया है। संगठन ने दुनिया के देशों को चेतावनी है कि कोरोना का उप-स्वरूप एन-1 तेजी से उभर रहा है और इसमें उतनी ही तेजी से बदलाव हो रहे हैं। इसलिए सभी देश इस बाबत जानकारी लगातार आपस में साझा करते रहें। देश में अब तक पिछली कई लहरों में मिलाकर कोरोना से 5,33,332 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तकरीबन साढ़े चार करोड़ से भी ज्यादा लोग कोरोना से प्रभावित हुए हैं। सबसे ज्यादा चिंता तो कोरोना के सब वैरिएंट एन-1 की है जिसकी चपेट में आने वालों की तादाद तेजी से बढ़ती जा रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय की मानें तो देश में साल के अंत में उत्तर भारत की तुलना में कोरोना के मरीजों की तादाद में दक्षिण भारत में ज्यादा बढ़ोतरी सामने आ रही है। कोरोना का यह नया वैरिएंट कई देशों में संक्रमण वृद्धि का कारण बन रहा है। आशंका है कि यह नया वैरिएंट पिछले वैरिएंट के मुकाबले ज्यादा संक्रामक हो सकता है। सबसे खराब हालत तो रूस की है, उसके बाद नम्बर सिंगापुर और फिर इटली का है। यह बात दौगर है कि दिल्ली स्थित आयुर्विज्ञान संस्थान के डाक्टरों का दावा है कि इससे लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। कोरोना के ऐसे वैरिएंट और लहरें तो आगे भी आयेगीं। लेकिन धीरे-धीरे रुग्णता और इससे होने वाली मृत्यु दर में कमी आती जायेगी। इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। यह भी सत्य है कि डेटाटैला जैसा खतरनाक

वायरस नहीं आयेगा। लेकिन एक हकीकत यह भी है कि कोरोना के वायरस मानव शरीर में मजबूती से जीवित रहने या अपना स्वरूप बदलने की कोशिश जरूर करेंगे। ऐसे हालात में जिन लोगों की जीवनशैली बेहतर होगी, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी, नया शोध तो यह भी दावा कर रहा है कि देश में लगभग 93 फीसदी लोगों में कोरोना से लड़ने वाली एंटीबाडी मिली है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि यह नया वायरस ओमिक्रॉन वायरस से मिलता-जुलता है। हकीकत यह है कि कोरोना का नया वैरिएंट जेएन-1 ओमिक्रॉन सबवैरिएंट बीए 2.86 का वंशज है। यह वैरिएंट सितम्बर महीने में अमेरिका में सामने आया था। दिसम्बर महीने के आखिरी हफ्ते में तकरीबन 50 फीसदी से अधिक मरीज वहां के अस्पतालों में भर्ती हुए हैं। रायटर्स की मानें तो 15 दिसम्बर को चीन में इस वैरिएंट के सात मामले सामने आये थे। सीडीसी के अनुसार भले ही वैरिएंट के नाम अलग-अलग दिखते हों, लेकिन स्पाइक प्रोटीन में जेएन-1 और बीए 2.86 के बीच केवल एक ही बदलाव है। इसीलिए केन्द्र सरकार ने समय रहते सतर्कता बरतने और राज्य सरकारों को तत्काल नमूने इकट्ठे करने के निर्देश दे दिए हैं। देश में सबसे पहले कोरोना ने केरल में ही अपने पैर पसारें थे। वह मौसम भी सदियों का ही था। इसलिए आम आदमी बदलावों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उस हालत में जबकि इन दिनों मौसमी अनियमितताएं भी हजारों नए लोग भी शामिल हो गए हैं। जिसके कारण विश्व हिंदू परिषद की चिंता बढ़ गई है। भगवान राम के बारे में कहा जाता है, कि राम नाम की लूट

भीषण बारिश ने अपना रोद्र रूप दिखाया है, जिसके चलते राहत एवं बचाव के लिए सेना भी बुलानी पड़ी थी। ऐसी स्थिति में कोरोना के साथ-साथ महामारी का अंदेश और बढ़ जाता है। हृदय रोगियों को ऐसे हालात से बचाव बेहद जरूरी है। दिल्ली स्थित एम्स का एक अध्यापन यह साफ कर चुका है कि जो लोग कोविड-19 के ज्यादा गंभीर शिकार रहे हैं, उनको अधिक श्रम नहीं करना चाहिए और इस बारे में दी गयी चेतावनियों का सजीदगी से पालन करना चाहिए। वह बात दौगर है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान से अब हमने स्वास्थ्य ढांचे में काफी सुधार किया है। सुविधाओं का भी विस्तार हुआ है लेकिन इस सच्चाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि चिकित्सा सुविधाओं से वंचित दुनिया की एक बड़ी आबादी हमारे देश की है। नेशनल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कोविड टास्क फोर्स के सह-अध्यक्ष राजीव जयदेवन के अनुसार सात महीने के अंतराल के बाद भारत में कोविड के मामले बढ़ रहे हैं। जेएन-1 तेजी से फैलने वाला वैरिएंट है और यह बाकी वैरिएंट्स के संस्करणों से काफी अलग है। कहने को तो इसके लक्षणों में बुखार, नाक बहना, गले में खर्राश, सिरदर्द और पेट से जुड़ी परेशानियां अहम हैं। इसके अधिकांश रोगियों में हल्की सांस सम्बंधी दिक्कतों का अनुभव होता है, जो आमतौर पर चार से पांच दिनों में ठीक हो जाता है। डब्ल्यूएओ ने इस वैरिएंट आफ इंटरनेट नाम दिया है और कहा है कि इससे वैश्विक स्वास्थ्य के लिए कोई बड़ा खतरा नहीं है। नीति आयोग



के सदस्य डॉ. वीके पाल की मानें तो इस वैरिएंट से कोरोना के टीके लगा चुके लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। भले डब्ल्यूएओ इसे वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिहाज से कम घातक करार दे, लेकिन उत्तरी गोलार्द्ध में सदियों की शुरुआत के साथ ही इसकी वजह से सांस सम्बंधी समस्याओं में इजाफा होने से खतरा बढ़ रहा है। मौजूदा हालात इस मामले में समय रहते उपचार की जरूरत पर बल देते हैं। सबसे बड़ी बात दूसरे देशों से आने वाले लोगों की निगरानी बेहद जरूरी है। ध्यान रहे कि कोरोना के खात्मे के बाद देश में अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौट आने, उसमें तेजी आने, समूची दुनिया में आवागमन में तेजी आने और यात्राओं के दौर में दिनोंदिन बढ़ते जा रहे वैरिएंटों के देश में आने की आशंकाओं को नकारा नहीं जा सकता। साथ ही इस खतरा से बचाव की सतर्कता सबसे बड़ी शर्त है। यह यात्रा में सावधानी और संक्रमण से बचाव के उपायों के बारे में समुचित प्रचार व प्रसार से ही संभव है। लेखक पर्यावरणविद हैं।

भगवान राम के नाम पर टगी का गोरख धंधा

(लेखक-सनत जैन)
विश्व हिंदू परिषद ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कहा गया है, कि अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के नाम पर कई जानसज टगी का धंधा कर रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने लोगों को ऐसे गोरखधंधा करने वालों से आगाह किया है। विहिप ने कहा है, कि साइबर अपराधियों द्वारा सोशल मीडिया पर संदेश भेजकर, मंदिर के नाम पर जो टगी का धंधा कर रहे हैं, उससे बचें। दरअसल सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के पास एक मैसेज भेजा जा रहा है। इस संदेश के साथ ही वयुआर कोड भी होता है। इसको स्कैन करके लोगों से दान राशि मांगी जा रही है।

फर्जी तरीके से चलाए जा रहे इस कैंपेन से टगों के खाते में रोजाना लाखों रुपए पहुंच रहे हैं। इस तरह की शिकायत विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने करते हुए, सरकार से कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने दिल्ली के गृह मंत्रालय और उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रमुख को भी इस आशय का पत्र भेजकर, इस तरह की टगी करने वालों पर लगाम लगाने की मांग की है। इतिहास गवाह है कि भगवान राम के नाम पर टगी करने का धंधा कोई नया नहीं है। हजारों वर्षों से यह धंधा चला आ रहा है। लोगों की आस्था को, देखते हुए फर्जी साधु-संत और टग हमेशा से भगवान राम के नाम का उपयोग टगी करने के लिए करते रहे

हैं। जो आज भी कर रहे हैं। भगवान राम की कृपा से लोगों का व्यापार, कारोबार और राजनीति उनके नाम पर हजारों वर्ष से होती आ रही है। अब इसमें भाजपा से जुड़े हुए अनुवांशिक संगठन और हिंदू संगठन के लोग भी भगवान राम के नाम पर इस तरह की लूट में शामिल हैं। जो सबसे बड़ी चिंता का विषय है। अब घर बैठे लाखों और करोड़ों रुपए की टगी की जा रही है। जब से राम मंदिर आंदोलन शुरू हुआ है। उसके बाद से ही राम के नाम पर चंदा एकत्रित किया जा रहा है। जिस नाम से चंदा एकत्रित किया जा रहा है, उस चंदा को संस्था में नहीं भेजकर लोग अपने पास रख लेते हैं। पिछले कुछ महिनों में जिस तरीके से रामलता

की प्राण प्रतिष्ठा और राम मंदिर निर्माण को लेकर जो प्रचार-प्रसार हुआ और लगातार हो रहा है। उसका असर पूरे देश में पड़ा है। हर आदमी को पता है कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। राम मंदिर के निर्माण और अन्य कार्यों के लिए लोग खुलकर चंदा दे रहे हैं। राम के नाम पर अब, साइबर टगी के भी कई द्वार खुल गए हैं। इसको नियंत्रित कर पाना शायद सरकार के लिए भी संभव न हो। लोगों की भावनाओं को किस तरीके से प्रभावित किया जाता है। किस तरह से उनकी आस्था का इस्तेमाल टगी के लिए किया जाता है। इसको टगी करने वाले बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं। राम मंदिर का निर्माण जब से शुरू

हुआ है। उसके बाद से ही बड़े-बड़े आरोप चंदे को लेकर लगे रहें हैं। चंदे का कोई हिसाब किताब कभी भी विश्व हिंदू परिषद ने भक्तों को नहीं दिया। विश्व हिंदू परिषद भी चंदे को लेकर तरह-तरह के आरोप लगाते रहे। राम मंदिर निर्माण के लिए जो जमीन खरीदी गई थी, उसमें भी करोड़ों रुपए के घोटाले की बात सामने आई। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भी दस्तावेजों के साथ कई आरोप लगाए थे। लेकिन उन पर अभी तक कोई जवाब नहीं की गई। अभी घोटाले में हजारों नए लोग भी शामिल हो गए हैं। जिसके कारण विश्व हिंदू परिषद की चिंता बढ़ गई है। भगवान राम के बारे में कहा जाता है, कि राम नाम की लूट

है। लूट सके तो लूट। इस लूट में शामिल होने के लिए राम का नाम ही पर्याप्त है। राम सभी के हैं। राम का नाम लेने से सभी को लाभ प्राप्त होता है। भगवान राम का नाम लेने से वैतरणी पार हो जाती है। राम के नाम पर टगी तो बहुत छोटी सी बात है। बहरहाल देश के 140 करोड़ भक्तों तथा विदेशों में करोड़ों राम भक्तों की संख्या को देखते हुए, टगों ने भी टगी करने के नए-नए तरीके इजाद कर लिए हैं। साइबर के माध्यम से टगी का पहिया तेजी के साथ घूम रहा है। भारत में जिस तरह की आस्था राम के प्रति जगाई गई है, उसके बाद

रातों-रात, राम का नाम लेकर करोड़ों प्रति और लखों बना जा सकता है। टीवी चैनलों और समाचार पत्रों में जिस तरह से भगवान राम का गुणगान किया जा रहा है, उससे भक्तों की राम के प्रति निष्ठा और आस्था भी बढ़ी है। निश्चित रूप से टगों के लिए यह सबसे सुनहरा मौका है, जिसका लाभ वह उठा रहे हैं।



उड़ान आपकी है

संतोष-भरा जीवन जीने के लिए अपने व्यक्तित्व की डोर थामना बिल्कुल वैसे ही जरूरी है.. जैसे खुश होने के लिए खुद मुस्कुराना..

बालिका को जीवन के प्रथम चरण से ही हर बात के लिए रोका टोका जाता रहा है। ऐसे उठो बैठो, अकेले बाहर मत जाओ, यह न करो.. कहीं न कहीं ये बातें महिलाओं के मन में कमजोर होने का भाव जगाती हैं। और अरमानों का वह आजाद परिंद, कैंद में रहकर, हौसला खोकर उड़ान भरना भूल जाता है। नतीजतन, स्त्री धीरे धीरे हर काम के लिए दूसरों पर निर्भर होने लगती है। आत्मविश्वास की कमी के कारण भी हर कार्य करने से पहले उसे सहमति की आवश्यकता होती है। फिर धीरे धीरे वह दूसरों के निर्णय को ही अपना निर्णय बना लेती है। गुजरते समय के साथ आत्मसम्मान में कमी आ जाती है और मन में अनजाना-सा दुख पनपने लगता है। हम सब आईने की तरह होते हैं। जैसे खुद को देखेंगे, स्वयं के बारे में जैसा सोचेंगे, वही हमारे कार्यों में दिखेगा, फिर वैसा ही लोग हमारे बारे में सोचेंगे। इसलिए आज से ही अपनी नींव मजबूत करना शुरू करें। खुद को जानें, खुद पर यकीन करें और फिर मजबूती से कदम बढ़ाएं। सामान्य भूलें जो हमें जीवन की कमान संभालने से रोकती हैं -

- खुद से, खुद की मर्जी से अनजान।

- राय और मंथने लिए बिना कुछ भी न कर पाना।
- छोटी-से छोटी भूल के लिए कई दिनों तक शर्मिंदा महसूस करना।
- जिंदगी तो दूर, दिन तक की योजना न बना पाना।
- शब्दों का बेजा प्रयोग करना।
वया आप भी अक्सर ऐसा कहती या सोचती हैं -
- डिग्री सही सबजेक्ट में ली होती, तो आज नौकरी ढूँढना आसान होता।
- जब इतना पैसा होगा, जिंदगी में मजा तो तब आएगा।
- अगर स्कूटी की जगह कार होती, तो काम बढ़ाया भी जा सकता था।
इसे आप कुछ इस तरह भी कह सकती हैं -
- मैंने जीवन में कुछ करने के दूसरे विकल्पों के बारे में नहीं सोचा।
- पैसों का प्रबंधन कभी ठीक से नहीं हुआ मुझसे।
- मुझे सुविधाएं जरा ज्यादा चाहिए।
अब अगर यह तय करना है कि जिंदगी की कमान संभालनी है, तो सबसे पहली बात, शिकायतें करना छोड़ दें। आपकी जिंदगी की कमियों या समस्याओं के लिए अगर खुद उपाय नहीं किया, तो किसी

पर दोष मढ़ने का हक नहीं।
हर दिन, हर परिस्थिति में ये चार मंत्र हमेशा याद रखिए -
1- चाहे हालात कैसे भी हों, किसी के सिर दोष मढ़ने के बजाय केवल निदान पर ध्यान दें।
2- मेरी अपनी कोई भी दिक्कत हो, पहले उसका हल खुद ही ढूँढूंगी।
3- अपने बारे में ईमानदार रहना होगा, चाहे कितनी भी बड़ी समस्या में फंस जाऊं।
4. अपने सपनों, अपनी इच्छाओं की अनदेखी नहीं करूंगी। न ही कभी यह सोचूंगी कि मैं फलां कार्य के लिए योग्य नहीं हूँ।
पता करें कि आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है-
- एक कामज पर कार्यों की प्राथमिकता अनुसार सूची बनाएं।
- पता करें कि कौन-सी बाधाएं आपको अंदर से परेशान कर रही हैं?
स्वयं पर विश्वास करें
- विश्वास करें कि आप अपने लक्ष्य को वास्तविक बनाने में सक्षम हैं।
यदि आप अपनी शक्ति व क्षमताओं पर विश्वास करेंगी, तभी लोग व घटनाएं भी आपका समर्थन करेंगी।

- आपके विचार ही अनुभव बनाते हैं, इसलिए भय या संदेह को खुद पर हावी न होने दें।
- मुस्कुराती रहें और स्वयं से हथियार करें।
कार्यान्वित करें- योजना बनाएं कि आप स्वयं को किस रूप में देखना चाहती हैं। उसी तस्वीर की प्रतिकृति मन में बना लें।
स्वयं के फंसले लें- आपके लिए जो कार्य वाकई आवश्यक है, उसकी तरफ़ ठोस कदम बढ़ाएं। दूसरों के विचारों को अहमियत देना जरूरी है, पर अंतिम फ़ैसला स्वयंके व अपनी आवश्यकता के आधार पर करें।
आत्मनिर्भर बनें- हर विषय में जानकारी लें। गैजेट्स, शहर के रास्ते आदि के बारे में जाने, ताकि समय आने पर आपको किसी पर निर्भर न रहना पड़े। स्वयं के कार्य करने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। फिर कोई भी कार्य करने से पहले आप राय नहीं लेंगी, बल्कि दूसरों को परामर्श देने में भी सक्षम होगी।
स्वयं के लिए समय निकालें- जो कुछ करना आपको अच्छा लगता है, उस कार्य को करने में कुछ समय व्यतीत करें। आध्यात्मिक उन्नति करें।

एक मिनट कीजिए सोलह शृंगार!



अगर आपको ऐसा जादुई आईना मिल जाए, जिसमें आप एक मिनट में दर्जनों बार शृंगार कर सकें और एक बटन दबाते ही सभी रूप ओझल हो जाएं तो कैसा रहे? चौंकिए नहीं। यूरोप के ब्यूटी काउंटरों पर एक ऐसे आईने की नुमाइश की जा रही है, जिसमें महिलाएं विभिन्न रूपों को आजमा कर सबसे अच्छे रूप का चयन कर रही हैं। जापानी ब्यूटी ब्रांड शिसीडो द्वारा तैयार किया गया यह आईना उपयोगकर्ता को आंखों, होठों और गालों का वास्तविक मेक-अप करने का भी विकल्प उपलब्ध कराता है। कंपनी के यूरोपीय स्टोर्स में यह आईना महिलाओं के बीच लोकप्रिय हो रहा है। आईने में एक कैमरा लगा है, जो महिला के रूप को अपनी मेमोरी में कैद कर लेता है। इसके बाद आईने के संवेदनशील टच स्क्रीन को छूकर 50 से अधिक आंखों और होठों के रंगों का चयन किया जा सकता है। 12 प्रकार के लालिमा से युक्त गालों के रंग का भी चुनाव इस आईने को देख कर किया जा सकता है। इस आईने में दिखाई देने वाला रूप ठीक उसी प्रकार का होता है, जो वास्तविक आईने में दिखता है। यदि मेकअप करने के चलते आंखों का रंग साफ नहीं दिखाई देता है, तो उसे स्क्रीन पर देखा जा सकता है। महिला अपने पसंदीदा रूप का चयन करने के बाद अपना फोटो भी ले सकती हैं। आईने में लगी मशीन उनके विभिन्न रूपों में से कुछ का संचय कर लेती है, जो बाद में पसंदीदा रूप के चयन में सहायता करती है।

अगर आपको ऐसा जादुई आईना मिल जाए, जिसमें आप एक मिनट में दर्जनों बार शृंगार कर सकें और एक बटन दबाते ही सभी रूप ओझल हो जाएं तो कैसा रहे? चौंकिए नहीं। यूरोप के ब्यूटी काउंटरों

उपनाम दर्शाए परिवार प्रेम

अगर बात विवाह जैसे पवित्र बंधन की हो तो हमारे देश में इसे बखूबी निभाया जाता है। शादी के बाद पत्नी की पहचान पति से ही होती है। खासकर उसके नाम और उपनाम से। मगर अमेरिका में तो लोग अपनी पत्नी का उपनाम तक लगाने लगे हैं। हालांकि विकसित देशों में भी पत्नी का उपनाम लेने पर पहले कोर्ट में अर्जी देनी पड़ती है और फिर ऐसे भी भरने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां इसका विरोध नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी 350 डॉलर देकर वहां पत्नी का उपनाम इस्तेमाल किया जा सकता है।

पति काटे कोर्ट के चक्कर: आजकल कई पति शादी के बाद अपनी पत्नी का सरनेम रखना पसंद कर रहे हैं। लेकिन उन्हें कुछ कानूनी दांवपेंच से गुजरना पड़ता है। जबकि औरतों के साथ यह बात लागू नहीं होती। उन्हें आसानी से अपने पति का सरनेम मिल जाता है। भारत में पति को पत्नी से ऊपर का दर्जा मिलता है, इसीलिए जब लड़की शादी कर अपने घर

जाती है तो वह अपने पति के सरनेम से जानी जाती है। हमारे देश में कम लेकिन बाहर के देशों में कई लोग ऐसे हैं, जो पत्नी का सरनेम खुशी से अपने नाम के साथ जोड़ना चाहते हैं।

महिलाएं भी दाखिल करती हैं अर्जी: कई देश ऐसे हैं जहां पति का सरनेम रखने के लिए भी कोर्ट की इजाजत लेनी पड़ती है। इराक, यमन, जार्डन, सीरिया में तो औरतें अपने पिता का उपनाम रखती हैं। शादी के बाद भी उनका नाम पिता के उपनाम के साथ ही जाना जाता है। अगर कोई महिला अपने पति का सरनेम रखने की इच्छा जताती है तो उसे कोर्ट में अर्जी दाखिल करनी होती है और बिना अदालती आदेश के वह अपने पति का सरनेम नहीं रख सकती।

पति के साथ खुद का सरनेम: भारत परम्पराओं का देश है। यहां परम्पराएं निभाई जाती हैं। शादी के बाद एक लड़की को अपने पति का नाम मिलता है। महिलाएं भी यहां पति का सरनेम रखना पसंद करती हैं। प्रियंका गांधी शादी के बाद अपने आप को प्रियंका वडेरा कहलाना अधिक पसंद करती हैं। कई मामले में महिलाएं पति के सरनेम के साथ-साथ अपना सरनेम भी रखती हैं। ऐश्वर्या राय ने शादी के बाद अपने पति का सरनेम लगाया और ऐश्वर्या राय बच्चन हो गईं। अभिनेत्री मानसी जोशी ने रोहित राय से शादी करने के बाद अपना नाम मानसी जोशी राय रखा है। लोग उन्हें इस नाम से जानते हैं, इसलिए शायद उन्होंने ऐसा किया।

शिखर की चाह

कामकाजी इंसान की ख्वाहिश लीडरशिप के शिखर पर पहुंचने की होती है। महिलाओं को यह राह निष्कंटक नहीं लगती। लेकिन इस राह को आसान वे खुद ही बना सकती हैं..

यह आपका कार्यक्षेत्र है। यहां आपका काम आपको पहचान और समान दिलाता है। आपको आत्मनिर्भर बनाता है। बेशक, यहां कई चुनौतियां हैं, पर यह न भूलें कि यहां अवसर भी हैं। आगे बढ़ने और लीडर बनने के अवसर। सो, पहले समझें कि लीडरशिप के लिए किन गुणों की दरकार होती है-

जिम्मेदारी- लीडर अधिकार से पहले जवाबदेही लेते हैं, क्योंकि जवाबदेही के साथ अधिकार तो मिल ही जाते हैं। वे लक्ष्य तय करते हैं। लीडर अतिरिक्त जिम्मेदारियों को कभी 'न' नहीं कहते।
संवाद- औरों को अपनी राय रखने और फीडबैक देने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हर तरह के फीडबैक का सम्मान करते हैं। दुराव छिपाव नहीं रखते।
आत्म अवलोकन- लीडर अपनी गलतियां मानते हैं और उन्हें दूसरों पर नहीं थोपते। न ही वे बहाने बनाते।
प्रोत्साहन- सहकर्मियों को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं। मदद और मार्गदर्शन के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। औरों की त्रुटियों में सहायक बनते हैं।
आइडिया- लीडर नए आइडिया और हथलान देते हैं, जिन पर उनके साथ अनुयायी चलते हैं।
तैयारी- अपनी योग्यताएं बढ़ाते रहते हैं। लीडर करने के लिए तैयार रहते हैं। चाहे चुनौती कुछ

भी हो, स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं। दतर में कई चुनौतियां महिलाओं के सामने खड़ी होती हैं, जिनमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण है, उसका ताल्लुक केवल और केवल छवि से है। इस बारे में हिलेरी क्लिंटन के एक प्रेस सहयोगी के कथन से जाना जा सकता है- 'महिला लीडर क्या कह रही है या वो क्या कहेगी, से कहीं ज्यादा लोग इस बारे में बात करते हैं कि वो कहते वक्त कैसी दिख रही थी।' आप कैसी दिखती हैं, द्रपतर में कैसे रहती हैं से लेकर किससे, क्या बात करती हैं, ये सब माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखा जाता है।

इसलिए, ध्यान रखें

- सबसे पहला प्रयास तो उन लोगों से जो केवल रूप या ड्रेस की बातें करते हैं, ध्यान हटाकर काम पर लगाना है। कुछ दिनों बाद ये लोग भी आपके फोकस के कायल हो जाएंगे।
- योग्यता में लगातार सुधार व निखार लाती रहें।
- फ़ैसले लेने के मामले में कमजोर साबित हुईं, तो द्रपतर में सहायक भूमिकाओं तक सीमित रह जाएंगी।
- बहुत सारे लोग मदद के लिए तैयार होंगे और चाहेंगे कि बदले में आप उनका एहसान मानें। अपनी समस्याओं से जहां तक संभव हो, खुद निपटें।
- द्रपतर में निजी बातें करना या अनावश्यक

घरेलू बातें करना दूसरों को गुलत अर्थ लगाकर, आपका ध्यान भटकाने का मौका दे सकता है। ये भी आजमाएं- नवीनतम गैजेट्स रखें। ये बताते हैं कि आप जमाने के साथ चलने वाली हैं। इनसे यह भी संदेश मिलता है कि सूचनाओं और संदेशों का आदान-प्रदान आपके लिए जरूरी है, यानी आपकी पोजीशन और काम महत्वपूर्ण हैं। हमेशा याद रखें- स्त्री होने के कारण अतिरिक्त सुविधाओं और छूट की उम्मीद न रखें। ये मिल तो जाएंगी, पर आपको सिर्फ कमजोर महिला समझकर खारिज कर दिए जाने का खतरा भी रहेगा, जो आपकी लीडरशिप की राह में सबसे बड़ी बाधा है। लोगों से सहयोग तो लें, लेकिन उन पर आश्रित न हो जाएं।

आलोचकों से न उलझें- आलोचकों पर अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें। मशहूर अमेरिकी गायिका बियॉंसे नोल्स कहती हैं, 'मैं यह उम्मीद नहीं कर सकती कि मैं जो भी करूँ, वह हर किसी को पसंद आए ही।' गृहक्षेत्र में सद्भाव- अमेरिकी शेयर मार्केट में बड़ी कमाई करने वाली सेली क्रॉचिक की सलाह है- स्त्री सुनिश्चित करें कि पति उसके काम व जिम्मेदारियों को समझ रहा है। तैयारी करें जहां- पहुंचना चाहती हैं, उसके लिए आवश्यक तैयारी करें। यह हर सफल महिला का मंत्र है। बिना तैयारी के अवसर भी बेकार चले जाते हैं।





साल के पहले दिन सोने और चांदी की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी

मुंबई । साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2024 को सोने और चांदी की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी हुई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (आईबीजेए) के मुताबिक, 10 ग्राम सोना 46 रुपये महंगा होकर 63,302 रुपये पर पहुंच गया है। वहीं 18 केरट सोने की कीमत 47,477 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। चांदी में भी सोमवार को तेजी देखी जा रही है। यह 229 रुपये महंगा होकर 73,624 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। पहले यह 73,395 रुपये पर था। पिछले महीने 4 दिसंबर को चांदी 77 हजार रुपये के पार पहुंच गई थी। साल 2023 की शुरुआत में सोना 54,867 रुपये प्रति ग्राम पर था, जो 31 दिसंबर को 63,246 रुपये प्रति ग्राम पर पहुंच गया। यानी साल 2023 में इसकी कीमत 8,379 रुपये (16 प्रतिशत) बढ़ गई। वहीं, चांदी भी 68,092 रुपये से बढ़कर 73,395 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई।

श्रीलंका ने ईंधन की खुदरा कीमतें बढ़ाई

कोलंबो । सरकार अमेरिकी डॉलर की विनिमय दर और वैश्विक तेल बाजार की कीमतों के आधार पर मासिक रूप से ईंधन की कीमतों में संशोधन करती है। हालांकि सोमवार की बढ़ोतरी पूरी तरह से नई वैट दरों का परिणाम है। श्रीलंका की वैट दर में सोमवार से तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई है। पहले 15 प्रतिशत कर लगाया था, जो अब बढ़कर 18 प्रतिशत हो गया है। वहीं अधिकतर वैट-मुक्त वस्तुओं को 18 प्रतिशत कर के दायरे लाया गया है। ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एप्रैल 20 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी की गई जो नई वैट दरों के तहत किसी भी वस्तु की खुदरा कीमत में पहली वृद्धि है। सरकार ने कहा कि संशोधन अर्थव्यवस्था पर बढ़ते प्रभाव को देखते हुए उसने ईंधन की खुदरा कीमत को उचित स्तर पर बनाए रखने के लिए ईंधन पर 7.5 प्रतिशत आयात शुल्क हटा दिया। श्रीलंका राष्ट्रपति एवं वित्त मंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने पिछले महीने कहा था कि राज्य के राजस्व को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के वार्षिक स्तर तक बढ़ाने के लिए वैट को 15 से बढ़कर 18 प्रतिशत करना आवश्यक है।

चीन की विनिर्माण गतिविधि दिसंबर में कम सुस्त रही

बैकॉक । चीन की विनिर्माण गतिविधियों में दिसंबर में गिरावट आई, जिसके साथ ही दुनिया की नंबर दो अर्थव्यवस्था अब भी सुस्त बनी हुई है। चीनी फेक्टरी प्रबंधकों के एक सर्वेक्षण में यह बात सामने आई। राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार आधिकारिक विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक या पीएमआई दिसंबर में गिरकर 49 पर आ गया। अधिकारियों का कहना है कि यह सुस्त मांग का संकेत है।

एचएफसीएल को बीएसएनएल से 1,127 करोड़ का ठेका मिला

नई दिल्ली । एचएफसीएल लिमिटेड (एचएफसीएल) को भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) से 1,127 करोड़ रुपये का ठेका मिला है। इस ठेके के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी के अखिल भारतीय नेटवर्क के ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क (ओटीएन) के बुनियादी ढांचे को बदलने का काम किया जाएगा। जटिल प्रणालियों को एकीकृत करने में अपनी अद्वितीय विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए एचएफसीएल ने अत्याधुनिक ऑप्टिकल प्रौद्योगिकी को तैनात करने के लिए नौकियां नेटवर्क के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। यह साझेदारी अत्याधुनिक समाधान प्रदान करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। यह प्रौद्योगिकी उत्कृष्टता नेटवर्क के मापदंडों को नए सिरे से परिभाषित करती है।



एचसीएल के फाउंडर नाडर की कमाई मुकेश अंबानी से ज्यादा

- शिव नाडर ने गैराज में शुरू की थी कंपनी, रोज देते हैं 5.6 करोड़ का दान

नई दिल्ली । साल 2023 समाप्ते हो गया है। बीते साल कमाई के मामले में देश की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी एचसीएल के फाउंडर शिव नाडर सब पर भारी पड़े। वित्त वर्ष 2023 में दान देने के मामले में भी वह सबसे आगे रहे। शिव नाडर 1976 में एक गैराज में एचसीएल की स्थापना की थी और आज वह देश के चौथे सबसे बड़े रईस हैं। पिछले साल यानी कैलेंडर ईयर 2023 में उनकी नेटवर्क में 9.39 अरब डॉलर का इजाफा हुआ और यह 33.9 अरब डॉलर पहुंच गई। नाडर की एचसीएल में 61 फीसदी हिस्सेदारी है। इस साल कंपनी के शेयरों में 45 फीसदी से अधिक तेजी आई है। खबर के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी की नेटवर्क में बीते साल 9.23 अरब डॉलर की तेजी आई। इसके साथ ही उनकी नेटवर्क 96.3 अरब डॉलर पहुंच गई।

लेकिन वह कमाई के मामले में नाडर से पिछड़ गए। नाडर की नेटवर्क में पिछले साल 9.39 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। नाडर भारतीय रईसों की लिस्ट में चौथे और दुनिया के अमीरों की लिस्ट में 44वें नंबर पर हैं। लेकिन दान देने के मामले में कोई उनके आसपास भी नहीं है। लगातार दो वर्षों से उन्होंने देश के सबसे बड़े दानवीर की कुर्सी पर कब्जा जमा रखा है। शिव नाडर का जन्म 14 जुलाई, 1945 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन में उन्हें आर्थिक दिक्कों के सामना करना पड़ा। कोयंबटूर के पीएसजी कॉलेज से इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के बाद उन्होंने 1967 में पुणे के वालचंद ग्रुप के कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से करियर की शुरुआत की। इसके बाद वह दिल्ली के डीसीएम ग्रुप के साथ एक कंप्यूटर प्रोग्रामर के तौर पर नौकरी की। लेकिन नौकरी में मन

नहीं रमा और 1976 में अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एचसीएल की स्थापना की। हिंदुस्तान कंप्यूटर्स लिमिटेड यानी एचसीएल की शुरुआत एक गैराज से हुई। नाडर की लीडरशिप में कंपनी ने दिन दोपना चार चौगुनी प्रोग्रेस की और जल्दी ही एक ग्लोबल आईटी सर्विसेज कंपनी बन गई। आज एचसीएल की 60 से भी ज्यादा देशों में मौजूदगी है और इसमें 2,22,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। जुलाई 2020, में नाडर ने कंपनी के चेयरमैन का पद छोड़ दिया और इसकी कमान अपनी बेटी रोशनी नाडर मल्होत्रा के हाथों में सौंप दी। वह कंपनी के चेयरमैन एफरेटिस और स्ट्रेटिजिक एडवाइजर हैं। नाडर ने 1994 में शिव नाडर फाउंडेशन की स्थापना की थी जो शिक्षा और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम करता है। कोरोना काल में भी उन्होंने बढ़चढ़कर दान दिया था।

जोमैटो को मिला 4.2 करोड़ रुपये का जीएसटी डिमांड नोटिस

नई दिल्ली ।

ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो ने कहा है कि उन्हें 2018 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के 4.2 करोड़ रुपये के कथित कम भुगतान पर दिल्ली और कर्नाटक के कर अधिकारियों से नोटिस मिला है। जोमैटो ने स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई जानकारी में इसका उल्लेख किया है, 'कंपनी को जीएसटी के कम भुगतान का आरोप लगाते हुए बिन्नी कर अधिकारी, वार्ड 300, दिल्ली और डिप्टी कमिश्नर,

डीजीएसटीओ-4, बेंगलुरु, कर्नाटक से तीन आदेश प्राप्त हुए, जिसमें केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (सीजीएसटी अधिनियम, 2017) की धारा 73 के तहत लागू ब्याज और जुर्माने के साथ, दिल्ली माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 ('डीजीएसटी अधिनियम, 2017') और कर्नाटक माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 ('केजीएसटी अधिनियम, 2017') शामिल हैं।' जोमैटो ने यह भी कहा कि वह टैक्स डिमांड दिल्ली और डिप्टी कमिश्नर,

कंपनी ने कहा, ऐसा लगता है कि दिल्ली और कर्नाटक के अधिकारियों ने पहले प्रस्तुत हमारे जवाब पर उचित विचार किए बिना 30 और 31 दिसंबर, 2023 को उपरोक्त आदेश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है, हमारा मानना है कि हमारे पास योग्यता के आधार पर एक मजबूत मामला है और कंपनी उचित अपील/विधि अधिकारियों के समक्ष आदेशों के खिलाफ अपील दायर करेगी। यह जोमैटो को डिलीवरी शुल्क के रूप में एकत्र किए गए अवैतनिक बकाया पर माल और सेवा कर

अधिकारियों से 400 करोड़ रुपये का कारण बताओ नोटिस मिलने के बाद आया है। जीएसटी इंटरलिजेंस महाविभाग (डीजीजीआई) ने पिछले महीने जोमैटो और उसके प्रतिद्वंद्वी स्विगी को एक डिमांड नोटिस जारी किया था, जिसमें उन्हें क्रमशः 400 करोड़ रुपये और 350 करोड़ रुपये से अधिक का लंबित बकाया भुगतान करने के लिए कहा गया था। जोमैटो को कारण बताओ नोटिस 29 अक्टूबर, 2019 और 31 मार्च, 2022 के बीच की अवधि के लिए है।

अरविंद पनगढ़िया वित्त आयोग के चेयरमैन बने

नई दिल्ली ।

नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अरविंद पनगढ़िया को वित्त आयोग का चेयरमैन बनाया गया है। सरकार ने एक गजट नोटिफिकेशन में यह जानकारी दी है। ऋतिक रंजन पांडेय को कमीशन का सेक्रेटरी बनाया गया है। चेयरमैन और कमीशन के दूसरे सदस्यों का कार्यालय रिपोर्ट सौंप जाने या 31 अक्टूबर 2025 तक होगा। कमीशन के दूसरे सदस्यों की नियुक्ति के बारे में अलग से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।

वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। इसका कार्य केंद्र और राज्यों की वित्तीय स्थितियों का मूल्यांकन करना, उनके बीच टैक्स के बंटवारे की सिफारिश करना तथा राज्यों के बीच टैक्स के वितरण की रूपरेखा तय करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पनगढ़िया को 2015 में नीति आयोग का पहला वाइस चेयरमैन बनाया था। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में योजना आयोग को खत्म करके उसकी जगह नीति आयोग बनाया गया था। 30 सितंबर, 1952 को वित्त आयोग का गठन किया जाएगा।

घरेलू शेयर बाजारों के लिए वर्ष 2023 शानदार रहा

नई दिल्ली ।

घरेलू शेयर बाजारों के लिए वर्ष 2023 शानदार रहा। इस दौरान 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 11,399.52 अंक बढ़ा, जबकि एनएसई निफ्टी में 3,626.1 अंक की तेजी आई। भारत से साथ-साथ जापान, यूरोप और अमेरिका में भी बीते साल शेयर बाजार ने निवेशकों की बल्ले-बल्ले रही। केवल चीन के शेयर बाजार में बीते साल गिरावट रही। सोमवार को करूर वेश्य बैंक, ग्रामिण इंस्ट्रुमेंट्स, डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज, एसबीआई काइड्स एंड पेंमेंट सर्विसेज के शेयर निवेशकों की झोली भर सकते हैं। आरबीआई ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट कंपनी को करूर वेश्य बैंक में 9.95 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की अनुमति दे दी है। आदित्य बिड़ला ग्रुप की केमिकल डिवीजन ग्रामिण इंस्ट्रुमेंट्स ने गुजरात के भरूच में सालाना 1.23 लाख टन अतिरिक्त क्षमता वाली मैनुफैक्चरिंग यूनिट शुरू कर दी है। डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज की स्टेप डाउन सब्सिडियरी ने इजरायल की कंपनी को 10,14,442 प्रीफर्ड ए-1 शेयर खरीदे हैं जो कंपनी में 6.46 फीसदी हिस्सेदारी के बराबर है। एसबीआई काइड्स एंड पेंमेंट सर्विसेज के शेयरहोल्डर्स ने निमित्त चुच को नॉर्मिनी डायरेक्टर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।



की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर हैं। इससे पहले वह एशियन डेवलपमेंट बैंक में टॉप इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं। साथ ही उन्होंने वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भी कई पदों पर काम किया है। केंद्र सरकार ने हाल में 16वें फाइनेंस कमीशन की संदर्भ शर्तों यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी दी थी। यह आयोग एक अप्रैल, 2026 से अगले पांच साल के लिए सिफारिशें देगा। कमीशन 31 अक्टूबर, 2025 तक राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा।

पंद्रहवें वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया था। आयोग ने 2020-21 से 2025-26 तक छह साल की अवधि के लिए अपनी सिफारिशें दी थीं। वित्त आयोग को अपनी सिफारिशें देने में आम तौर पर लगभग दो साल लगते हैं। सिफारिश के अनुच्छेद 280 के खंड (1) के अनुसार, वित्त आयोग का गठन हर पांचवें वर्ष या उससे पहले किया जाता है। 16वें वित्त आयोग के एडवांस सेल का गठन 21 नवंबर 2022 को वित्त मंत्रालय में किया गया था, ताकि आयोग के औपचारिक गठन तक प्रारंभिक कार्य को निगरानी की जा सके।

दिसंबर में जीएसटी कलेक्शन 1.64 लाख करोड़ के पार

नई दिल्ली । साल 2024 के पहले दिन मोदी सरकार के अच्छी खबर आई। जहां दिसंबर-2023 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी से 1.64 लाख करोड़ रुपये जुटाए गए हैं। ये एक साल पहले यानी दिसंबर 2022 के मुकाबले 10 प्रतिशत ज्यादा है। तब जीएसटी से 1.49 लाख करोड़ जुटाए गए थे। वहीं एक महीने पहले नवंबर में सरकार ने जीएसटी से 1.67 लाख करोड़ रुपये जुटाए थे। दरअसल लगातार 10वां बार ऐसा हुआ है कि रेवेन्यू कलेक्शन 1.5 लाख करोड़ से ऊपर रहा है। हालांकि अब तक सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन शान अप्रैल 2023 में हुआ था, तब ये आंकड़ा 1.87 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया था। इसके अलावा लगातार 21 महीने से देश का जीएसटी कलेक्शन 1.4 लाख करोड़ रुपये से ऊपर बना हुआ है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, दिसंबर 2023 में जीएसटी कलेक्शन 1,64,882 करोड़ रुपये रहा है। इसमें सीजीएसटी 30,443 करोड़ रुपये, एसजीएसटी 37,935 करोड़ रुपये, आईजीएसटी 84,255 करोड़ रुपये (माल के आयात पर कलेक्ट किए 41,534 करोड़ रुपये सहित) और सेस 12,249 करोड़ रुपये रहा है। सेस में माल के आयात से मिले 1,079 करोड़ रुपये शामिल हैं।

नए साल पर बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स और निफ्टी रिकार्ड स्तर पर पहुंचे

निवेशकों को कुल 1.22 लाख करोड़ रुपये का लाभ

मुंबई ।

साल के पहले ही कारोबारी दिन सोमवार को घरेलू शेयर बाजार तेजी के साथ बंद हुए। दुनिया भर के बाजारों से मिले कमजोर संकेतों के बाद भी लंबाला खरीददारी से बाजार में ये उछल आया हालांकि अंतिम घंटे में बिकवाली हावी रहने से ये भारी बढ़त कायम नहीं रह पायी। कारोबार के दौरान सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही रिकार्ड स्तर पर पहुंचे। सेंसेक्स पहली बार 72,561.91 के स्तर पर पहुंचा। वहीं निफ्टी ने 21,834.35 का नया रिकार्ड स्तर बनाया। दिन भर के कारोबार के बाद तीस शेयरों पर आधारित बीएसई सेंसेक्स 31.68 अंक करीब 0.044 फीसदी बढ़कर 72,271.94 अंक पर बंद हुआ। वहीं पचास शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 10.50 अंक तकरीबन 0.048 फीसदी बढ़कर 21,741.90 के स्तर पर बंद हुआ। आज कुल बाजार पूंजीकरण बढ़कर 365.50 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया। ये पिछले कारोबारी दिन यानी शुक्रवार 29 दिसंबर को 364.28 लाख करोड़

रुपये था। इस प्रकार आज निवेशकों को कुल 1.22 लाख करोड़ रुपये का लाभ हुआ। बीएसई का मिडकैप इंडेक्स भी आज 0.54 फीसदी और स्मॉलकैप इंडेक्स 0.73 फीसदी की बढ़त के साथ बंद हुआ। सेक्टरल इंडेक्स में सबसे अधिक तेजी ऑयल एंड गैस, टेलीकम्युनिकेशंस, आईटी और फार्मा शेयरों में देखने को मिली। वहीं दूसरी ओर ऑटो और बैंकिंग सेक्टर में हल्की गिरावट रही। बीएसई सेंसेक्स के 30 में 11 शेयर आज बढ़त पर बंद हुए। इसमें भी एनटीपीसी के शेयरों में सबसे अधिक 2.94 फीसदी की तेजी रही। इसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा एमएडएम, नेस्ले इंडिया, पावर ग्रिड और टाटा मोटर्स के शेयरों में सबसे अधिक तेजी रही और ये 0.71 फीसदी से लेकर 1.66 फीसदी तक बढ़कर बंद हुए। वहीं भारतीय एयरटेल का शेयर सबसे ज्यादा 1.98 फीसदी गिरा जबकि एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और बजाज फिनसर्व के शेयर 0.66 फीसदी से लेकर 1.43 फीसदी तक की गिरावट के साथ बंद हुए। बीएसई पर आज बढ़त के साथ



बंद होने वाले शेयरों की संख्या अधिक रही। कुल 4,047 शेयरों में आज कारोबार देखने को मिला। इसमें से 2,527 शेयर बढ़त पर बंद हुए। वहीं 1,364 शेयरों में गिरावट रही। जबकि 156 शेयर बिना किसी उतार-चढ़ाव के सेंसेक्स सोमवार को शुरुआती कारोबार में गिरावट आई। बीएसई का 30 शेयर सूचकांक सेंसेक्स सोमवार को शुरुआती कारोबार में 207.29 अंक गिरकर 72,032.97 पर कारोबार कर रहा था। वहीं निफ्टी 46.65 अंक फिसलकर 21,684.75 पर पहुंच गया।

नए साल पर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर हुआ सस्ता

मुंबई ।

तेल कंपनियों ने 19 किलोग्राम के कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम में आंशिक कटौती की है। नए साल के पहले दिन कंपनियों ने 1.50 रुपये प्रति सिलेंडर कम किए हैं। नई कीमतें नए साल 2024 के पहले दिन से ही लागू हो गई हैं। वैसे घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इससे आम आदमी को सीधे तौर पर फायदा नहीं मिलेगा। घर के किचन में

आने वाला सिलेंडर पुरानी कीमत पर ही मिलेगा। वैसे उम्मीद की जा रही थी कि चुनावी साल लगते ही आम उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है। 1 जनवरी 2019 को 14.2 किलोग्राम गैर-सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतें काफी कम हो गई थीं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) की वेबसाइट के मुताबिक अब राजधानी दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर की कीमत 1.50 रुपये घटकर



1755.50 रुपये हो गई है। मुंबई में इसका दाम 1.50 रुपया सस्ता होकर 1708.50 रुपये हो गया है। चेन्नई में सबसे ज्यादा 4.50 रुपये

घटकर इसकी कीमत 1924.50 रुपये हो गई है। कोलकाता में इसकी कीमत 1869 रुपये हो गई है।

70,000 रुपये तक पहुंच सकता है सोना

नई दिल्ली ।

पीली धातु की चमक नए साल 2024 में भी बने रहने की संभावना है। हाल में सोने की कीमत में आई तेजी पर जानकारों का कहना है कि अगले साल सोना 70,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच सकता है। रुपये की स्थिरता, भ्रूराजनीतिक अनिश्चितता और धार्मी वैश्विक आर्थिक वृद्धि के कारण नए साल में भी सोने का आकर्षण कायम रहेगा।

2,083 डॉलर प्रति औंस की नई ऊंचाई पर पहुंच गया। बाद में 16 नवंबर को सोना 61,914 रुपये प्रति 10 ग्राम की रिकार्ड ऊंचाई को छू गया। कॉमिट्रेंड रिसेच के निदेशक ज्ञानशेखर त्यागराजन ने कहा, 'निवेश के सुरक्षित विकल्प के रूप में सोने का आकर्षण बरकरार है। यही वजह है कि इस साल चार दिसंबर को सोने का भाव 64,063 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए रिकार्ड पर पहुंच गया। वैश्विक बाजार में यह 2,140 डॉलर प्रति औंस के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया।'

फिलहाल जिस एक्सचेंज एमसीएक्स में सोना 63,060 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में यह 2,058 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस के आसपास है। वहीं रुपया इस समय 83 प्रति डॉलर के पार पहुंच चुका है। दिसंबर की शुरुआत में वैश्विक तनाव की वजह से पश्चिम एशिया में सोने के दाम एक बार फिर चढ़ गए। उभरते बाजार के कारोबारियों का अनुमान है कि ब्याज दर में बढ़ोतरी का चक्र कमजोर समाप्त हो चुका है। हालांकि, इस साल सोने की कीमतों में काफी उतार-चढ़ाव रहा। घरेलू बाजार में चार मई को पीली धातु का भाव 61,845 रुपये प्रति 10 ग्राम के सर्वकालिक नए उच्चस्तर पर पहुंच गया। वैश्विक बाजारों में यह

10 हजार से भी कम में अब 32 इंच के एलईडी टीवी उपलब्ध

नई दिल्ली ।

दस हजार रुपये से कम कीमत में टीवी लेने वाले उपभोक्ताओं के पास अब 24 और 32 इंच के स्क्रीन साइज वाले एलईडी टीवी के विकल्प मौजूद हैं। इसके लिए अमेजन सेल से कम कीमत में घर बैठकर मनपसंद इच्छा पूरी कर सकते हैं। जब भी स्मार्ट टीवी खरीदने की बात आती है, तो उसके बारे में अच्छे से जानकारी होना बेहद जरूरी है। ऐसे में अगर आप अपने घर के लिए टीवी को लेने को भी एंजॉय कर सकते हैं। इसमें विकल्प को चेक कर सकते हैं। यह एलईडी टीवी अण्डर 10000 24 और 32 इंच के साइज में आ रहे हैं। इनमें एंटरटेनमेंट के लिए काफी एप्स का भी सपोर्ट दिया हुआ है। इसके अलावा इन्हें आप यूएसबी और एचडीएमआई कनेक्टिविटी भी कर सकते हैं। स्लिम और स्लीक डिजाइन वाले यह एलईडी टीवी आपके बजट में एकदम फिट बैठेंगे। इनमें मनोरंजन का भी पूरा मजा मिलेगा। इन्हें आप अपने बेडरूम, ऑफिस, किड्स रूम में भी लगवा सकते हैं।

एडवांस्ड एन सीरीज वाला यह 32 इंच का एचडी एलईडी टीवी है। इस स्मार्ट टीवी में 24 वाट का हार्ड-फाई स्पीकर दिया हुआ है। इसके अलावा यह स्मार्ट टीवी यूएसबी और एचडीएमआई कनेक्टिविटी वाले इस एप्स एचडी एलईडी टीवी में 1 साल की कॉमिप्रिहेंसिव वारंटी मिल रही है। यह स्मार्ट टीवी डिजिटल नॉइस रिडक्शन के साथ आ रहा है। ए प्लस ग्रेड पैनेल वाला यह स्मार्ट टीवी एचडी डिस्प्ले के साथ आ रहा है। इसमें 20 वाट का आउटपुट स्पीकर दिया हुआ है। 24 इंच का यह करबोनेन एलईडी टीवी बेहद कम कीमत में आया है। इसमें आप अपनी मनपसंद एप्स को भी एंजॉय कर सकते हैं। इसमें 720 पिक्सल की रेजोल्यूशन और 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट दी है। यह टीवी वाइड व्यूंग एंगल से भी देखा जा सकता है। 18 महीने की वारंटी के साथ आ रहा यह फेमलेस डिजाइन वाला स्मार्ट टीवी है। यह टीवी जेडई5, यूट्यूब, गैंगमा और प्रोप्रम वीडियो जैसी एप्स को भी सपोर्ट करता है। 32 इंच का यह एचडी एलईडी स्मार्ट एलईडी टीवी बेडरूम में लगाने के लिए बेस्ट रहेगा। इसमें 20 वाट का आउटपुट साउंड दिया हुआ है। आईपीई टेक्नोलॉजी वाला यह स्मार्ट टीवी 16.7 मिलियन कलर्स को सपोर्ट करता है। 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ आ रहा यह स्मार्ट टीवी हार्ड-फाई स्पीकर दिया हुआ है। इसके अलावा यह स्मार्ट टीवी बहिया है।

एडवांस्ड एन सीरीज वाला यह 32 इंच का एचडी एलईडी टीवी है। इस स्मार्ट टीवी में 24 वाट का हार्ड-फाई स्पीकर दिया हुआ है। इसके अलावा यह स्मार्ट टीवी यूएसबी और एचडीएमआई कनेक्टिविटी वाले इस एप्स एचडी एलईडी टीवी में 1 साल की कॉमिप्रिहेंसिव वारंटी मिल रही है। यह स्मार्ट टीवी डिजिटल नॉइस रिडक्शन के साथ आ रहा है। ए प्लस ग्रेड पैनेल वाला यह स्मार्ट टीवी एचडी डिस्प्ले के साथ आ रहा है। इसमें 20 वाट का आउटपुट स्पीकर दिया हुआ है। 24 इंच का यह करबोनेन एलईडी टीवी बेहद कम कीमत में आया है। इसमें आप अपनी मनपसंद एप्स को भी एंजॉय कर सकते हैं। इसमें 720 पिक्सल की रेजोल्यूशन और 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट दी है। यह टीवी वाइड व्यूंग एंगल से भी देखा जा सकता है। 18 महीने की वारंटी के साथ आ रहा यह फेमलेस डिजाइन वाला स्मार्ट टीवी है। यह टीवी जेडई5, यूट्यूब, गैंगमा और प्रोप्रम वीडियो जैसी एप्स को भी सपोर्ट करता है। 32 इंच का यह एचडी एलईडी स्मार्ट एलईडी टीवी बेडरूम में लगाने के लिए बेस्ट रहेगा। इसमें 20 वाट का आउटपुट साउंड दिया हुआ है। आईपीई टेक्नोलॉजी वाला यह स्मार्ट टीवी 16.7 मिलियन कलर्स को सपोर्ट करता है। 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट के साथ आ रहा यह स्मार्ट टीवी हार्ड-फाई स्पीकर दिया हुआ है। इसके अलावा यह स्मार्ट टीवी बहिया है।

हरमप्रोत की कप्तानी में तीसरे एकदिवसीय में जीत के इरादे से उतरेगी भारतीय टीम

मुंबई (एजेंसी)। हरमप्रोत की कप्तानी वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम मंगलवार को यहां ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ तीसरे और अंतिम एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में हर हाल में जीत दर्ज करना चाहेगी। भारतीय टीम को पहले दो मैचों में हार का सामना करना पड़ा है, इससे उसके हाथ से सीरीज पहले ही निकल गयी है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू मैदान पर उसे अब तक लगातार नौ मैच में हार झेलनी पड़ी है और अब वह इस सिलसिले को तोड़ने का पूरा प्रयास करेगी। भारतीय टीम को एकमात्र जीत टेस्ट मैच में मिली थी। इस मैच में भारतीय टीम की जीत कप्तान हरमप्रोत के प्रदर्शन पर आधारित रहेगी। वह

पिछले दो मैचों में उम्मीद के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर पायी थी। इससे टीम को हार का सामना करना पड़ा। हरमप्रोत ने इस सत्र में अब तक सभी प्रारूप में जो आठ पारियां खेली हैं उनमें से केवल तीन पारियों में ही वह बड़ा स्कोर बना पायी है। वह इस दौरान एक बार भी अर्धशतक तक भी नहीं लगा पायी। ऐसे में टीम की बल्लेबाजी प्रभावित हुई है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट मैच में भी हरमप्रोत रन नहीं बना पायी थी। पहले मैच में भारतीय गेंदबाज विकल रथे और टीम के 282 रन बनाने के बाद भी इस स्कोर का बचाव नहीं कर पाये थे। वहीं दूसरे मैच में भारतीय टीम अपने कमजोर क्षेत्ररक्षण के कारण हारी थी। उसने कई अहम कैच छोड़े थे।

ऐसे में इस मैच में उसे क्षेत्ररक्षण पर ध्यान देना होगा। दूसरे मैच में रिचा घोष ने शानदार बल्लेबाजी कर भारतीय टीम को ओर से 96 रन बनाने में मदद की। रिचा के अलावा युवा जेमिमा रोड्रिगस ने भी इस मैच में अच्छी बल्लेबाजी की थी। रिचा अब तक टीम को आक्रामक शुरुआत देने में सफल रही हैं। इस मैच में भी उसे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी। वहीं दूसरी ओर अमनजोत कौर और दीप्ति शर्मा को अपना प्रदर्शन सुधारना होगा। पिछले मैच में अच्छी स्थिति में होने के बाद भी वह टीम को लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकी थी। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपने घरेलू मैदान पर पिछले 16 साल से

एकदिवसीय में जीत नहीं पायी है और ऐसे में उसे अगर जीत दर्ज करनी है तो सभी खिलाड़ियों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा। स्नेह राणा के तीसरे मैच में खेलने की पूरी उम्मीद है। स्नेह दूसरे एकदिवसीय में क्षेत्ररक्षण करते समय पूजा वसन्तकर से टकरा गयी थीं पर अब वह ठीक हैं। वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियाई टीम का मनोबल बढ़ा हुआ है। अब इस मैच को जीतकर उसका लक्ष्य सीरीज में 3-0 से स्पष्ट जीत दर्ज करना रहेगा। ऑस्ट्रेलियाई टीम की कप्तान एलिशा हिली अब तक रन नहीं बना पायी हैं। ऐसे में टीम को उनसे रनों की उम्मीद रहेगी। अब तक टीम को ओर से फोव्वे लीचफील्ड और एलिस पेरी ने ही तेजी से



नए साल के पहले दिन डेविड वॉर्नर ने किया संचायक का ऐलान

सिडनी (एजेंसी)। दिग्गज क्रिकेटर डेविड वॉर्नर ने नए साल के पहले ही दिन वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने प्रतिष्ठित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (एससीजी) में पाकिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाले अपने विदाई टेस्ट मैच से दो दिन पहले यह निर्णय लिया है। 37 साल के वॉर्नर ने वर्ल्ड कप 2023 के दौरान 50 ओवरों के प्रारूप से संन्यास लेने पर मन बनाया था। वॉर्नर ने कहा कि उन्हें अपनी पत्नी कैडिस और तीन बेटियों- आइडी, इसला और इडी को अधिक समय देने की जरूरत है। हालांकि वॉर्नर ने यह भी कहा कि यदि ऑस्ट्रेलिया को चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए शीर्ष क्रम के बल्लेबाज की जरूरत होगी, तो वह रिटायरमेंट से से वापस आ जाएंगे, जिसकी मेजबानी 2025 में पाकिस्तान को करनी है। वॉर्नर ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया का नवंबर में भारत के खिलाफ विश्व कप फाइनल उनका 50 ओवरों के प्रारूप से आखिरी मैच था 'मैं निश्चित रूप से एकदिवसीय क्रिकेट से भी संन्यास ले रहा हूँ। वॉर्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, मुझे पता है कि चैम्पियंस ट्रॉफी आने वाली है और अगर मैं दो साल बाद भी अच्छे क्रिकेट खेलता हूँ और उन्हें किसी की जरूरत है, तो मैं उपलब्ध रहूंगा। युनिया के विस्फोटक बल्लेबाजों में से एक वॉर्नर के नाम पर वनडे विश्व कप के दो खिताब दर्ज हैं, जिनमें विश्व



कप 2023 में भारत के खिलाफ फाइनल की जीत भी शामिल है। इस टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सर्वाधिक रन बनाए थे। वॉर्नर ने पिछले विश्व कप में 11 मैच में 48.63 की औसत और 108.29 के स्ट्राइक रेट से 535 रन बनाए, जिसमें दो शतक और इतने ही अर्धशतक शामिल हैं। उनका 163 रनों का उच्चतम स्कोर पाकिस्तान के खिलाफ गेंगटुके के चित्रास्वामी स्टेडियम में आया था। वॉर्नर ने 161 वनडे इंटरनेशनल मुकामलों में 45.30 की औसत और 97.26 के स्ट्राइक रेट से 6932 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से 22 शतक और 33 अर्धशतक निकले। वॉर्नर ने जनवरी 2009 में होबार्ट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ अपना वनडे डेब्यू किया था और रिकी पॉटिंग, एडम गिलक्रिस्ट, मार्क वाँ, माइकल क्लार्क और स्टीव वॉ के बाद छठे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने। वॉर्नर ने अब तक 111 टेस्ट मैच खेले हैं, जिनमें उनके नाम 44.58 की औसत से 8695 रन दर्ज हैं।

यूनाइटेड कप : नोवाक जोकोविच ने सर्बिया को दिलाई चीन पर जीत

पर्थ (ऑस्ट्रेलिया)। नोवाक जोकोविच ने पर्थ में एक दशक के बाद पहला मैच खेले हुए यूनाइटेड कप टैनिस् टूर्नामेंट में सर्बिया को चीन पर 2-1 से जीत दिलाई। जोकोविच ने पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के इस शहर में इससे पहले अपना अंतिम मैच 2013 में होपमैन कप में खेला था। जोकोविच ने एकल मैच में झांग झिझें को 6-3, 6-2 से हराया और फिर ओला डेनिलोविच के साथ मिलकर निर्णायक मिश्रित युगल में झांग क्लिनवेन और झांग के खिलाफ 6-4, 1-6, 10-6 से जीत दर्ज की। झांग ने इस बीच डेनिलोविच को 6-4, 6-2 से हराकर चीन को हरावारी दिलाई थी। चीन ने अपने पहले मुकामलों में चेक गणराज्य को 3-0 से बराबा था लेकिन अब सर्बिया भी गुप ई से आगे बढ़ने की दौड़ में शामिल हो गया है।



नाओमी ओसाका की मां बनने के बाद कोर्ट पर सफल वापसी

ब्रिस्बेन। विश्व की पूर्व नंबर एक खिलाड़ी नाओमी ओसाका ने मां बनने के बाद टैनिस् कोर्ट पर सफल वापसी करते हुए सोमवार को यहां ब्रिस्बेन इंटरनेशनल टूर्नामेंट के पहले दौर में जीत दर्ज की। जर्मनी की तमारा कोरपात्सा के खिलाफ ओसाका दूसरे सेट में 5-3 पर मैच के लिए सर्विस कर रही थी लेकिन उन्होंने अपनी सर्विस गंवा दी। यह सेट आखिर में टाइब्रेकर तक खिंचा जिसमें ओसाका ने 6-3, 7-6 (9) ने जीत दर्ज करके अगले दौर में जगह बनाई। ऑस्ट्रेलियाई ओपन और अमेरिकी ओपन की पूर्व विजेता ओसाका गर्भवती होने के कारण पिछले साल ऑस्ट्रेलियाई ओपन से हट गई थीं। जुलाई में उन्होंने बेटिया को जन्म दिया था। ओसाका ने मैच के बाद कहा, 'पूरे मैच के दौरान मैं वास्तव में काफी नर्वस थी। मैं सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने मेरा हाथला बढ़ाया।' ओसाका अगले दौर में विश्व की पूर्व नंबर एक खिलाड़ी और ब्रिस्बेन इंटरनेशनल में तीन बार की चैंपियन कैरोलिना प्लिस्कवा से भिड़ेगी। लगातार बारिश के कारण बाहरी कोर्ट पर होने वाले मैच स्थगित करने पड़े। मुख्य कोर्ट पर छह घंटे के कारण उसी पर मैच संभव हो पाया। पुरुष वर्ग में शीर्ष चरियता प्राप्त होकर रूने ने ऑस्ट्रेलिया के मैक्स परसेल को 4-6, 6-4, 6-2 से हराया, लेकिन पिछले साल अमेरिकी ओपन के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले अमेरिका के 21 वर्षीय खिलाड़ी और यहां तीसरी वरीयता प्राप्त ब्रेन शेल्टन को रोमन सर्फीउलिन से 6-3, 6-7 (5), 6-3 से हार का सामना करना पड़ा। मेलबर्न में 14 जनवरी से शुरू होने वाले ऑस्ट्रेलियाई ओपन की तैयारी के सिलसिले में ब्रिस्बेन इंटरनेशनल काफी महत्व रखता है।

दूसरे टेस्ट से पहले दक्षिण अफ्रीका को झटका, धारदार गेंदबाज हुआ बाहर

नई दिल्ली। केपटाउन में भारत बनाम साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकामला आगामी 3 जनवरी से शुरू होगा। मेजबान टीम को इसके पहले बड़ा झटका लगा है। चोट की वजह से टीम के स्टार तेज गेंदबाज गेराड कोएल्टी सीरीज के दूसरे मैच से बाहर हो गए हैं। यह जानकारी क्रिकेट साउथ अफ्रीका की ओर से दी गई है। अपने एक आधिकारिक बयान में कहा कि 23 वर्षीय गेराड कोएल्टी को सीरीज के पहले मैच के तीसरे दिन गेंदबाजी करते में पैरविकल में परेशानी महसूस हुई थी। वह अब और भी खराब हो गई है। शुक्रवार को उनका स्कैन कराया गया जिसमें चोट की गंभीरता का पता चला है। इसमें कहा गया है कि मुख्य कोच शुक्र कोनराड ने पहलियात के तौर पर कोएल्टी को दूसरे के दौरान टीम से बाहर करने का फैसला किया है। क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने 3 जनवरी से शुरू होने वाले टेस्ट क्रिकेट के लिए गेराड कोएल्टी का विकल्प नहीं चुनने का फैसला किया है। क्योंकि टीम में तेज गेंदबाजी विकल्प के रूप में कैगिसो रबाडा, मार्को जानसन और नॉर्ब बर्ग के अलावा, दक्षिण अफ्रीका के पास लुंगी एलिंगडी और वियाना मुल्डर के रूप में अन्य तेज गेंदबाजी विकल्प मौजूद हैं। बता दें कि दक्षिण अफ्रीका ने पहले टेस्ट के शुरुआती दिन ही बाएं हैंडरिंग की वजह से कप्तान तेम्बा बाबुमा को खो दिया था। इस दौरान जुबेर हमजा को उनके रिप्लेसमेंट के रूप में शामिल किया गया था। बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने से पहले अपने अंतिम टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका का नतुल करेगे, जिन्होंने सेंचुरियन में 185 रन की मैच जिताऊ पारी खेली थी।

साल 2024 में भी व्यस्त रहेगा भारतीय टीम का कार्यक्रम

-टीम को खेलने हैं 5 टेस्ट टी-20 और 3 एकदिवसीय

मुंबई (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के अनुसार इस साल भी भारतीय टीम का कार्यक्रम गत वर्ष की तरह ही काफी व्यस्त रहने वाला है। भारतीय टीम को इस साल 15 टेस्ट मैच खेलने हैं। वहीं सबसे अधिक 17 टेस्ट इंग्लैंड को खेलने हैं। इसके अलावा भारतीय टीम को जून में अमेरिका और वेस्टइंडीज में होने वाले आईसीसी टी20 विश्वकप में भी खेलना है। भारतीय टीम को इस साल का पहला मुकामला मेजबान दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलेना है। ये मुकामला 3 जनवरी से शुरू होगा। इसके बाद भारतीय टीम मई तक अपने घरेलू घरेली पर होने वाले मैचों के साथ ही आईपीएल सत्र में भाग लेगी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक टेस्ट मैच

खेलने के बाद टीम स्वदेश में ही अफगानिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की टी20आई सीरीज खेलेगी। इस सीरीज के बाद भारत और इंग्लैंड के बीच पांच मैचों की टेस्ट सीरीज खेले जाएगी। ये सीरीज आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होने के कारण अहम रहेगी। इसके बाद आईपीएल और टी20 विश्वकप में टीम शामिल होगी। टी20 विश्वकप के बाद भारतीय टीम श्रीलंका के दौरे पर 3-3 मैचों की टी20आई और एकदिवसीय सीरीज खेलेगी। वहीं इसके बाद बांग्लादेश की टीम भारत के दौरे पर आएगी और दोनों के बीच 2 टेस्ट और 3 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच होंगे। इसके बाद भारतीय टीम अपनी ही घरेली पर न्यूजीलैंड के साथ तीन टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी। वहीं साल के अंत में भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चार टेस्ट मैच खेलेने हैं।

ऋषभ पंत को नासिर ने बताया बॉक्स ऑफिस क्रिकेटर

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट की प्रमुख बल्लेबाज ऋषभ पंत की आक्रामक शैली को इंग्लैंड के पूर्व कप्तान और मौजूदा एक्सपर्ट नासिर हुसैन मुरीद है। पिछले साल ऋषभ पंत की कार का एक्सिडेंट हो गया था जिसमें उन्हें काफी चोट आई थी। उनके घुटने की सर्जरी भी हुई थी। इस कारण पंत पिछले एक साल से क्रिकेट से दूर चल रहे हैं, हालांकि वह लगातार अपनी फिटनेस पर काम कर रहे हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि वह आईपीएल 2024 के जरिए क्रिकेट की फील्ड पर वापसी करेंगे। नासिर हुसैन ने ऋषभ पंत को बॉक्स ऑफिस क्रिकेटर बताया है।

न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश टी 20 सीरीज हुई ड्रॉ, मेजबानों ने जीता आखिरी मुकामला

आईसीसी से नासिर हुसैन ने ऋषभ पंत के कार एक्सिडेंट को लेकर कहा, वह बहुत गंभीर दुर्घटना थी। पूरी दुनिया की सांसें रुक गई थीं और इसमें घीमी गति से सुधार हुआ है। नासिर हुसैन कि वह सोशल मीडिया पर ऋषभ पंत की रिकवरी को फॉलो कर रहे थे, वहीं एशेज सीरीज के दौरान जब वह एक बार रिकी पॉटिंग के साथ टैवल कर रहे थे तो हुसैन ने देखा कि पॉटिंग पंत की प्रगति का अपडेट ले रहे थे। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने कहा आप सोशल मीडिया पर उसे फॉलो करते हैं, मेरे फोन में और शुरुआती कदमों से लेकर जिम में चलने के दृश्य और फिर उनके कुछ क्रिकेट खेलने के दृश्य, रिकी (पॉटिंग) के साथ उनके दृश्यों को फॉलो करते हैं। मैंने एशेज में नॉर्मिंग में रिकी के साथ टैवल किया था और रिकी उसी मैसैज भेज रहा था प्रगति कैसी चल रही है, और वह एक बॉक्स ऑफिस क्रिकेटर है। ऋषभ पंत की गैरमौजूदगी में केएल राहुल ने लिमिटेड ओवर क्रिकेट में विकेट कीपर की शानदार भूमिका निभाई है, वहीं वह अब टेस्ट क्रिकेट में भी हाथ आजमा रहे हैं। राहुल ने भारत को पंत की कमी महसूस नहीं होने दी, मगर हुसैन का मानना है कि पंत चोटिल होने से पहले भी बॉक्स ऑफिस पर थे और

से सुधार हुआ है। नासिर हुसैन कि वह सोशल मीडिया पर ऋषभ पंत की रिकवरी को फॉलो कर रहे थे, वहीं एशेज सीरीज के दौरान जब वह एक बार रिकी पॉटिंग के साथ टैवल कर रहे थे तो हुसैन ने देखा कि पॉटिंग पंत की प्रगति का अपडेट ले रहे थे। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान ने कहा आप सोशल मीडिया पर उसे फॉलो करते हैं, मेरे फोन में और शुरुआती कदमों से लेकर जिम में चलने के दृश्य और फिर उनके कुछ क्रिकेट खेलने के दृश्य, रिकी (पॉटिंग) के साथ उनके दृश्यों को फॉलो करते हैं। मैंने एशेज में नॉर्मिंग में रिकी के साथ टैवल किया था और रिकी उसी मैसैज भेज रहा था प्रगति कैसी चल रही है, और वह एक बॉक्स ऑफिस क्रिकेटर है। ऋषभ पंत की गैरमौजूदगी में केएल राहुल ने लिमिटेड ओवर क्रिकेट में विकेट कीपर की शानदार भूमिका निभाई है, वहीं वह अब टेस्ट क्रिकेट में भी हाथ आजमा रहे हैं। राहुल ने भारत को पंत की कमी महसूस नहीं होने दी, मगर हुसैन का मानना है कि पंत चोटिल होने से पहले भी बॉक्स ऑफिस पर थे और



वापसी के बाद भी वह बॉक्स ऑफिस पर बने रहेंगे। हुसैन ने कहा, भारत ने उनके (पंत) बिना अच्छे प्रदर्शन किया है क्योंकि केएल आए हैं और सभी प्रारूपों में शानदार रहे हैं। वे (राहुल) शानदार तरीके से खेलना आगे भी जारी रखेंगे। वे (भारत) भाग्यशाली हैं कि उनके पास राहुल और पंत जैसे खिलाड़ी हैं, लेकिन ऋषभ पंत अपनी चोट से पहले भी बॉक्स ऑफिस पर बने रहेंगे, और उम्मीद है कि उनकी चोट के बाद भी, बॉक्स ऑफिस पर बने रहेंगे।

राहुल जैसा कप्तान मिलने से अपने को भाग्यशाली मानता हूँ : लैंगर

नई दिल्ली। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर और आईपीएल टीम लखनऊ सुपर जाइंट्स के कोच जस्टिन लैंगर ने बल्लेबाज केएल राहुल की जमकर तारीफ की है। लैंगर ने राहुल को अच्छा दिखने वाला खिलाड़ी बताया। राहुल लखनऊ सुपर जाइंट्स के कप्तान भी हैं। लैंगर ने कहा कि अपनी टीम के लिए राहुल जैसा कप्तान मिलने से भी वह अपने को भाग्यशाली मानते हैं। लैंगर ने कहा कि जब वह ऑस्ट्रेलियाई कोच तब भारतीय टीम के खिलाफ मैच में वह तब तक आराम नहीं करते थे जब तक कि राहुल आउट न हो जायें। साथ ही कहा कि राहुल जितने अच्छे दिखते हैं उनका बल्लेबाजी भी उतनी ही अच्छी है।

हमें निलंबन मंजूर नहीं, न ही एडहॉक कमेटी, राष्ट्रीय चैंपियनशिप करवाएंगे : संजय सिंह



नई दिल्ली। भारतीय कुश्ती पर छाप संकट के बादल हटने का नाम नहीं ले रहे और अब निलंबित डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष संजय सिंह ने सोमवार को कहा कि वे एडहॉक समिति या खेल मंत्रालय द्वारा लगाए गए निलंबन को नहीं मानते और राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन करेंगे। भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफआई) के चुनाव के तीन दिन बाद ही मंत्रालय ने महासंघ को निलंबित कर दिया। सरकार के अनुरोध पर भारतीय ओलंपिक संघ (आईओसी) ने तीन सदस्यीय पैनल का गठन किया जिसके अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह बाजवा होंगे। समिति के अन्य सदस्यों में पूर्व हॉकी खिलाड़ी एम एम सोमाया और पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी मंजूषा कंवर हैं। तदर्थ समिति ने सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2 से 5 फरवरी को जयपुर में कराने का ऐलान किया है। संजय ने कहा कि हमारा चुनाव लोकतांत्रिक ढंग से हुआ है। निर्वाचन अधिकारी ने कागजों पर दस्तखत किए जिसे वे केवल अन्दरूनी कर सकते हैं। हम इस तदर्थ समिति को नहीं मानते। यह पूछने पर कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप कैसे होगी, उन्होंने कहा कि हम इस निलंबन को नहीं मानते। डब्ल्यूएफआई अच्छे से काम कर रही है। तदर्थ समिति राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन कैसे करेगी अगर हमारे प्रदेश संघ टीमों की नहीं भेजेगी। हम जल्दी ही अपनी राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन करेंगे। हम जल्दी ही कार्यकारी समिति की बैठक बुलाएंगे। इसका नोटिस एक या दो दिन में भेज दिया जाएगा।

नीरज चोपड़ा के बाद किशोर जेना और डीपी मनु एआईयू के आरटीपी में शामिल

नई दिल्ली (एजेंसी)। एशियाई खेलों के रजत पदक विजेता भाला फेंक खिलाड़ी किशोर जेना और डीपी मनु को भी ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा के साथ वैश्विक टैक एवं फील्ड की डोपिंग थैथी निगरानी संस्था एथलैटिक्स इंटीग्रेटी यूनिट (एआईयू) के पंजीकृत परीक्षण पूल (आरटीपी) में शामिल कर दिया गया है। मौजूदा विश्व चैंपियन और एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता चोपड़ा पिछले कुछ समय से आरटीपी में शामिल हैं लेकिन जेना और मनु को पहली बार इसमें शामिल किया गया है। जिससे भाला फेंक में विश्व स्तर पर भारतीय खिलाड़ियों के दबदबे का पता चलता है। जेना हंगरी के बुडापेस्ट में



आयोजित विश्व चैंपियनशिप 2023 में चोपड़ा ने इस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक पांचवें जबकि मनु छठे स्थान पर रहे थे।

पुजारा और रहाणे रणजी ट्रॉफी की तैयारियों में लगे



मुंबई। बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे आजकल रणजी ट्रॉफी की तैयारियों में लगे हैं। इन दोनों को ही खराब प्रदर्शन के कारण भारतीय टीम से बाहर कर दिया गया था। जिसके बाद से ही अब इनकी वापसी असंभव नजर आती है। ऐसे में अब ये दोनों घरेलू क्रिकेट ही खेल रहे हैं। इन दोनों की सोशल मीडिया पर बल्लेबाजी अभ्यास वाली एक वीडियो आई है। पुजारा सीराट्ट की ओर से रणजी में खेलते हैं। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए उन्हें टीम में जगह नहीं मिली थी। पुजारा को अंतिम बार इस साल की शुरुआत में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में अवसर मिला था। उन्हें वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज से भी जगह नहीं मिली थी। माना जा रहा है कि अब चयनकर्ता उनके नाम पर विचार नहीं करेंगे क्योंकि भविष्य को देखते हुए युवाओं को अवसर देना है। पुजारा हालांकि अभी भी अपने को मैच फिट बनाए हुए हैं। एक विलंप में उन्हें रक्षात्मक स्ट्रोक खेलते हुए देखा जा सकता है। वहीं इससे पहले भारतीय टीम के दिग्गज स्पिनर हरभजन सिंह ने पुजारा और रहाणे को टीम से बाहर करने पर सवाल उठाये थे। उनका कहना था कि अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा ने विदेशी हालातों में हमेशा शानदार प्रदर्शन किया है। साथ ही कहा कि पुजारा टेस्ट क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ भारतीय बल्लेबाजों में शामिल रहे हैं और उन्होंने कई टेस्ट मैच में टीम को हार से बचाया है। साथ ही कहा कि रहाणे का प्रदर्शन भी विदेशी घरेली पर शानदार रहा है।

सिमरनजीत और रजनी करेंगे एफआईएच हॉकी 5 विश्वकप में भारतीय पुरुष और महिला टीम की कप्तानी

नई दिल्ली (एजेंसी)। सिमरनजीत सिंह और रजनी इतिमाए मुस्कट में होने वाले आगामी एफआईएच हॉकी 5 विश्वकप में भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम की कप्तानी करेंगी। एफआईएच हॉकी 5 में 24 से 27 जनवरी तक पुरुषों के मुकामले जबकि 28 जनवरी से 31 जनवरी तक महिलाओं के मुकामले खेले जाएंगे। इसमें कुल 16 टीमों शामिल होंगी। हॉकी इंडिया के अनुसार इस दौर के लिए दोनो ही टीमों को पोषित कर दी गयी है। साथ ही कहा कि भारतीय महिला टीम की कप्तान रजनी इतिमाए के पास रहेगी, वहीं उपकप्तान डिफेंडर महिमा चौधरी को बनाया गया है। दूसरे गोलकीपर तौर पर बंसायी सोलंकी और डिफेंडर के रूप में अश्वता अबासो ठेकाले और ज्योति कुर्रो को रखा गया है। मिडफील्डरों के लिए मारियाना कुजूर और मुस्ताज खान को जगह

मिली है जबकि अजमीना कुजूर, रुताजा दादासो पिसल और दीपिका सोरंग को फारवर्ड के रूप में रखा गया है। भारतीय महिला टीम को इस टूर्नामेंट में नामाबिया, पोलैंड और अमेरिका के साथ पूल सी में रखा गया है। वहीं पूल ए में फिजी, मलेशिया, नीदरलैंड और मेजबान ओमान हैं जबकि पूल बी में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, यूक्रेन और जाम्बिया हैं और पूल डी में न्यूजीलैंड, पराग्वे, थाईलैंड और उरुग्वे को रखा गया है। टीम के कोच सौंदर्या ने टीम चयन की प्रशंसा करते हुए कहा, 'टीम में युवा खिलाड़ी शामिल हैं जिनके पास काफी अच्छे अंतरराष्ट्रीय अनुभव हैं और इस बड़े आयोजन में खेलने के लिए वे पूरी तरह से तैयार भी हैं। वहीं पुरुष टीम की कप्तानी अनुभवी फारवर्ड सिमरनजीत सिंह जबकि उपकप्तानी

डिफेंडर मनदीप मोर संभालेंगे। टीम में गोलकीपर सूरज करकेरा और प्रशांत कुमार चौहान के अलावा डिफेंस में मंजीत के साथ मदीप मोर को भी शामिल किया गया है। वहीं मिडफील्ड में मोहम्मद राहील मौसोन और नमिंदर सिंह हैं जबकि फारवर्ड के तौर पर कप्तान सिमरनजीत के साथ पवन राजभर, गुरुजोत सिंह और उत्तम सिंह शामिल हैं। भारतीय टीम को पूल बी में जगह मिली है और वह नॉक आउट दौर में जगह बनाने के लिए मिस्र, जमैका और स्विट्जरलैंड का सामना करेगी। पूल ए में नीदरलैंड, नाइजीरिया, पाकिस्तान और पोलैंड हैं और पूल सी में ऑस्ट्रेलिया, केन्या, न्यूजीलैंड, त्रिनिदाद और टोबैगो हैं जबकि पूल डी में फिजी, मलेशिया, ओमान और अमेरिका शामिल हैं। टीम के बारे में कोच सरदार सिंह ने कहा, 'हमने हॉकी के इस रोमांचक प्रारूप के लिए युवाओं और अनुभव



के साथ एक बहुत ही संतुलित टीम चुनी है। इस टीम में कई अच्छे खिलाड़ी हैं जिससे हमें टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है।

नए साल की पहली सूर्य किरण के आगमन के साथ ही सूर्य को नमस्कार कर गुजरात द्वारा बनाए गए विश्व रिकॉर्ड में सूरत जिले ने भी हिस्सा लिया



वन पर्यावरण राज्य मंत्री मुकेशभाई पटेल की अध्यक्षता में सूरत पुलिस परेड ग्राउंड में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया

सूरत। गुजरात सरकार के खेल, युवा और सांस्कृतिक विभाग, गांधीनगर के साथ-साथ गुजरात राज्य योग बोर्ड और सूरत नगर निगम द्वारा नए साल के शुभ दिन पर राज्यव्यापी सूर्य नमस्कार महाभियान का शुभारंभ किया गया। जिसके तहत आज सूरत पुलिस परेड ग्राउंड में वन पर्यावरण राज्य मंत्री मुकेशभाई पटेल की मौजूदगी में योग साधकों ने एक साथ सूर्य नमस्कार किया। सूरत जिले के 3 सहित पूरे राज्य के 108 ऐतिहासिक स्थलों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया। योग भारतीय संस्कृति की एक प्राचीन पद्धति है जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई।

यह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण के असंख्य लाभों के लिए दुनिया भर में मान्यता प्राप्त है। इसमें शरीर, मन और आत्मा में सामंजस्य स्थापित करने के लिए शारीरिक आसन, आसन, प्राणायाम और ध्यान शामिल हैं। इस कार्यक्रम में सूर्य मंदिर, मोहेरा में आयोजित कार्यक्रम में राज्य स्तर से विजेता रहे 6 सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगियों को पुरस्कार भी दिए गए। कार्यक्रम में सर्वाधिक सूर्य नमस्कार का विश्व रिकॉर्ड दर्ज किया गया। योगी प्रेमियों ने मोहेरा सूर्य मंदिर से मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेल का सीधा प्रसारण देखा। इस अवसर पर महापौर दक्षेश मवानी,

दिवस महापौर नरेंद्र पाटिल, सूरत शहर के पुलिस आयुक्त अजय कुमार तोमर, सतारूद दल के नेता शशिबेन त्रिपाठी, दंडक धर्मेशभाई वानियावाला, दिवस आयुक्त डॉ. राजेंद्र पटेल, योग बोर्ड समन्वयक भीमभाई बासेल, योग समन्वयक सोनल चौहान, योग संयोजक योग संयोजक गृह निर्माण एवं उद्यान समिति अध्यक्ष गीताबेन सोलंकी, पुलिस विभाग के कार्मिक, नगर निगम के अधिकारी-कर्मचारी, गुजरात योग बोर्ड के प्रतिनिधि, योग प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षक, विद्यार्थियों एवं योग प्रशिक्षकों सहित खेल विभाग के प्रतिनिधि, योग साधक-योग प्रेमियों ने सामूहिक धूप की।



जनजातीय विकास राज्य मंत्री कुंवरजीभाई हलपति की अध्यक्षता में सूरत के डुमस बीच पर सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया

सूरत के ऐतिहासिक किले पर शिक्षा राज्य मंत्री प्रफुल्लभाई पानशेरिया की अध्यक्षता में सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया



सूरत। राज्य में योग के माध्यम से नागरिकों को स्वस्थ बनाने के एक नए दृष्टिकोण के साथ, गुजरात राज्य योग बोर्ड और सूरत की संयुक्त पहल के तहत आदिवासी विकास राज्य मंत्री कुंवरजीभाई हलपति की अध्यक्षता में डुमस बीच पर सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया। नगर निगम। सूर्य नमस्कार आनंद और उल्लास के आश्रय के लिए किया जाता था। इस अवसर पर जनजातीय विकास राज्य मंत्री कुंवरजीभाई हलपति ने सूर्य नमस्कार योग का महत्व बताते हुए कहा कि सूर्य के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होता, इसलिए सूर्य नमस्कार सूर्य के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका है। हमारे ग्रह पृथ्वी पर सभी जीवन ऊर्जा का मुख्य कारण। सूर्य नमस्कार हमारे ऋषि-मुनियों द्वारा निर्धारित बारह आसनों का एक समूह है। जो एक ऐसा कदम है जो शरीर, सांस और दिमाग को शांत करते हुए ध्यान में गहराई तक जाने में मदद करता है। सूर्य नमस्कार शरीर को ऊर्जावान बनाता है और दिमाग को तरोताजा कर देता है, जिससे हम दिन के सभी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं।

सूर्य नमस्कार हृदय और रक्त वाहिकाओं के लिए एक उत्कृष्ट व्यायाम है और वजन कम करने का एक अच्छा तरीका है। उन्होंने आगे कहा कि सूर्य नमस्कार मनुष्य को ऊर्जा देता है। शरीर को लचीला बनाता है, और रक्त परिसंचरण में सुधार करता है, रक्त परिसंचरण में सुधार होने से महत्वपूर्ण आंतरिक अंग अधिक कार्यात्मक हो जाते हैं और शरीर के त्रिदोष वात, कफ और पित्त को संतुलित करते हैं। इसलिए, सूर्य नमस्कार आसन को प्रतिदिन करने का अनुरोध राज्य मंत्री द्वारा किया गया था। प्रदेश के 108 ऐतिहासिक स्थलों पर एक साथ भव्य सामूहिक सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया। डुमस में उपस्थित योगी प्रेमियों ने मोहेरा सूर्य मंदिर से मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेल का सीधा प्रसारण देखा। इस अवसर पर विधायक सर्वश्री संदीपभाई देसाई, मनुभाई पटेल, नगरसेवक, जिला योग समन्वयक नवनीत शेल्टिया, योग प्रशिक्षक और प्रशिक्षक, एसएमसी के अधिकारी, शहर के लोग और बड़ी संख्या में योग प्रेमी उपस्थित थे।

सूरत। सोमवार को 'सूर्यनमस्कार महाभियान' के तहत सूरत शहर के चौकबाजार स्थित ऐतिहासिक किले पर शिक्षा राज्य मंत्री श्री प्रफुल्ल भाई पानशेरिया की अध्यक्षता में 'सूर्यनमस्कार महाभियान' के तहत 'केंद्र सरकार के 'फिट इंडिया' संकल्प और 'स्वस्थ गुजरात' के साथ-साथ योगाभ्यास के माध्यम से जन स्वास्थ्य जागरूकता के लिए नववर्ष 2024 के पहले और नए दिन पर सूर्य नमस्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया। गुजरात राज्य योग बोर्ड और सूरत नगर निगम की संयुक्त पहल से आयोजित इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने सूर्य नमस्कार किया और सूर्यदेव की पूजा की। यहां सूरतवासियों ने सूर्य को नमस्कार कर नए साल का स्वागत किया और सामूहिक योग महाभियान से जुड़कर शहरवासियों को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित किया। गौरतलब है कि योग और सूर्य नमस्कार मानसिक और शारीरिक ऊर्जा के स्रोत हैं। सूर्य नमस्कार का स्वास्थ्य, विज्ञान और धर्म की दृष्टि से तिगुना महत्व है। चूंकि सूर्य नमस्कार में अधिकाल आसन शामिल होते हैं इसलिए

इसे पूर्ण योग भी कहा जाता है। सूर्य नमस्कार, जिसे चंद्र अल्टीमेट आसन भी कहा जाता है, पीठ के साथ-साथ मांसपेशियों को भी मजबूत बनाता है और रक्त शर्करा को कम करता है। नियमित सूर्य नमस्कार से रक्त संचार भी बेहतर होता है जो त्वचा के लिए भी फायदेमंद है। इस प्रकार के सूर्य नमस्कार के कई फायदे हैं। आज, नए साल की पहली सुबह, सूरज की पहली किरण के साथ, पूरे गुजरात राज्य ने 'बीमारी को चुनौती, सूर्य को सलाम' थीम के साथ सबसे अधिक संख्या में योग प्रेमियों द्वारा सूर्य नमस्कार करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। मोहेरा के सूर्य मंदिर में मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेल की उपस्थिति में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में विजेता रहे 6 सर्वश्रेष्ठ प्रतियोगियों को पुरस्कृत किया गया। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण योगी प्रेमियों ने देखा। सूर्य की आराधना एवं आराधना के इस अवसर पर विधायक सर्वश्री विनोदभाई मोडिया, पूंशा मोदी, योग समन्वयक हेमल प्रजापति, योग प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षक, नगरसेवक, नगर निगम अधिकारी, शहरीजन सहित बड़ी संख्या में योग साधक एवं योग प्रेमी उपस्थित थे।



सूरत भूमि, सूरत। एकल श्रीहरि द्वारा भव्य श्री राम कथा का आयोजन वीआईपी रोड स्थित श्याम मंदिर के लखदातार हॉल में दोपहर तीन बजे से किया गया। तीन दिवसीय कथा के प्रथम दिन सोमवार को व्यासपीठ से कथाकार संगीता दीदी ने अपने निर्दोष और मधुर वाणी से सभी का मन मोह लिया। ब्यास कथाकार संगीता दीदी ने बताया कि जब नगरवासी वनवासियों को गले लगा लेंगे तो ये भारत सही मायने में विश्व गुरु बनेगा। क्योंकि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। शिव पार्वती के प्रसंग के दौरान दीदी ने बताया शिवजी विश्वास का प्रतीक है और माँ पार्वती श्रद्धा की प्रतीक है। और जब व्यक्ति के जीवन में श्रद्धा बढ़ने लगती है, तब ही संत का आगमन होता है। कथा में आदिवासी नगरीय कथा टोली के साथ सभी श्रद्धालु झूम झूमकर नृत्य करने लगे। एकल श्रीहरि द्वारा वनवासी कथाकार तैयार किए जाते हैं। व्यासपीठ पर विराजित संगीता दीदी भी उनमें से एक हैं।

शहर के साहित्यकार एवं कवि डॉ. शीतल नायर को एमिली डिकिंसन पुरस्कार से सम्मानित किया गया

शहर के एक लेखक और कवि द्वारा श्री राम भगवान और सीता माता पर केंद्रित कविता को अमेरिकी साहित्य में उत्कृष्टता के लिए पोएट्री एसोसिएशन ऑफ अमेरिका द्वारा मान्यता प्राप्त एमिली डिकिंसन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। लेखक एवं कवि डॉ. शीतल नायर ने कहा कि अब तक मैंने अलग-अलग विषयों पर 6 किताबें लिखी हैं और यह मेरी 7वीं किताब है। फ्लेमिंग ऑफ डिजायर नाम से लिखे गए 21 कविताओं के काव्य संग्रह में भगवान श्रीराम और माता सीताजी के प्रेम के बारे

में कविता दिव्य प्रेम शीर्षक के तहत लिखी गई है। यह कविता सॉनेट प्रकार में लिखी गई है। इस प्रकार की कविता वर्तमान में केवल गणनात्मक कवियों द्वारा ही लिखी जा रही है। कविता को पोएट्री एसोसिएशन ऑफ अमेरिका द्वारा मान्यता दी गई है और मुझे एमिली डिकिंसन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसे अमेरिकी साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट माना जाता है। यह पुरस्कार समारोह अमेरिकी कवयित्री एमिली डिकिंसन के सम्मान में 2003 से आयोजित किया जा रहा है। मैं गुजरात का एकमात्र कवि हूँ जिसे यह है।



सम्मान मिला है। 22 जनवरी को जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा है तो माना जा रहा है कि इस कविता के जरिए जय श्री राम की आवाज अमेरिका में खो गई है। उल्लेखनीय है कि डॉ. शीतल नायर द्वारा लिखित पुस्तक फ्लेमिंग ऑफ डिजायर एक अमेज़न बेस्टसेलर पुस्तक का एकमात्र कवि हूँ जिसे यह है।

डा. शितल नायर देवी प्रेम शिर्षक लेखनी कविता: प्राचीन समयों में, प्रेम भूषण ज सुंदर रीते पीलवते उठते, जेने जोया माटे देवताओं अने राजाओंके पन्न विराम लीषो उठते, अक राजकुमार अने राजकुमारी, तेमनी अजोड जोडीमां उठा, जेमनी प्रेम साथो उठते... राजकुमार श्री राम भूषण डिंमतवान थोदा उठा, जेनी बहादुरी अने ताकातेने कोठी पन्न वटावी शक्युं न उठुं, अने सीताछ सोनाना हृदयवाणा राजकुमारी उठा, जेमनी सुंदरताके बधाना हृदयने मोहित क्युं उठुं... तेमना प्रेमनी कसोटी करवामां आवी अने ते शुद्ध साहित्य थयो उठते, तेओके कसोटीओ अने विपत्तियों धशी सडन करी उठती, जंगलधी लठने युद्ध सुधी तेओके दरेक वस्तुनो सामनो क्यो, तेओ उंभेशा अकधीजानी साथे जीभा उठा, तेओ क्यारेय पडया नडी... उ श्रीराम अने सीताछ, तमारो प्रेम अमर रहेसे, दरेक प्रेमीओ माटे तामारी वार्ता प्रेरणाउप साहित्य थथे, तामारी प्रेम कथा दरेक समये प्रेरित करेसे, अने अमारा हृदयमां आ प्रकरनो प्रेम सदाय प्रज्वलित रहेसे.